



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 21, 1992 (कार्तिक 30, 1914)  
No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 21, 1992 (KARTIKA 30, 1914)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग मकलम के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4 [PART I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियाँ आदि से सम्बन्धित  
अधिसूचनाएँ

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by  
the Ministry of Defence.]

रक्षा मंत्रालय

सेना शाखा

नई दिल्ली, दिनांक 21 नवम्बर 1992

एम० जी० ओ० शाखा

सं० 1048, दिनांक —राष्ट्रपति,  
कुमारी सोनू अग्निहोत्री को 13 जुलाई, 1992 (पूर्वाह्न)  
से विदेशी भाषा विद्यालय में 2200-4000 रुपए के वेतनमान  
में तदर्थ आधार पर चीनी भाषा की प्राध्यापिका नियुक्त  
करते हैं। यह नियुक्ति 6 माह की अवधि के लिए या  
नियमित अधिकारी उपलब्ध होने तक की अवधि के लिए  
इसमें से जो भी पहले हो, है।

राष्ट्रपति, श्रीमती सरमिष्ठा गुप्ता बसत को 15 जुलाई,  
1992 (पूर्वाह्न) से विदेशी भाषा विद्यालय में 2200-  
4000 के वेतनमान में तदर्थ आधार पर चीनी भाषा की  
प्राध्यापिका नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति 6 माह की  
अवधि के लिए या नियमित अधिकारी उपलब्ध होने तक  
की अवधि के लिए इसमें से जो भी पहले हो, होगी।

पी० एस० छीना,  
उप सचिव

सं० 1049, दिनांक —निम्न-  
लिखित आशुलिपिक ग्रेड "सी" को उनके नाम के सामने  
दी गई अवधि के लिए या चयन सूची से व्यक्तियों के  
उपलब्ध होने पर में से जो भी पहले हो उस समय तक के  
लिए सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक  
ग्रेड "बी" (पी० एस०) में अस्थाई आधार पर नियुक्त  
किए जाते हैं —

1. श्रीमती एल० डी० मागू 1-1-1991 से 30-6-1991  
1-7-1991 से 31-12-1991
2. श्री एम० एम० कपूर 1-1-1991 से 30-6-1991  
1-7-1991 से 31-12-1991  
1-1-1992 से 30-6-1992  
1-7-1992 से 31-12-1992
3. श्री आर० के० खली 1-1-1991 से 30-6-1991  
1-7-1991 से 31-12-1991

4 श्री एम० आर० जैन	1-1-1991 से 30-6-1991
5 श्री ज्ञान प्रकाश	1-1-1992 से 30-6-1992 1-7-1992 से 31-12-1992

2 ये नियुक्तिया पूर्ण रूप से अस्थाई आधार पर हैं और इन्हें बिना नोटिस दिए प्रशासनिक कारणों से परिवर्तित किया जा सकता है ।

ए० पी० मुण्ड,  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

#### सेना शाखा

स० 1050, दिनांक — राष्ट्रपति,  
निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करने हैं —

#### नियमित सेना

#### स्थायी आयोग

(2/लिफ्टिनेन्ट के पद पर दिनांक 8 जून, 1991 से)

पवन दत्त (आई० सी०-50272 डब्ल्यू), इन्जिनियर्स ।

सन्दीप सिंह रावत (आई० सी०-50273 वाई),  
ए० सी० ।

पी० साजन मोहदीन (आई० सी -50274 एफ),  
आर्टिलरी ।

विक्रम सिंह चौहान (आई सी -50275 के),  
इन्फैन्ट्री ।

कुञ्जीत सिंह (आई० सी०-50276 एम), इन्फैन्ट्री ।  
शलाभा गुप्ता (आई० सी -50277 पी), इन्जीनियर्स ।

विशाल गुनगिया (आई० सी -50278 एम), इन्जी-  
नियर्स ।

धरम राज राय (आई० सी०-50279 ए), इन्फैन्ट्री ।

अनिल कुमार (आई० सी०-50280 पी), इन्फैन्ट्री ।

जी० शंकर (आई० सी०-50281 एम), इन्जीनियर्स ।

अमित खोशवगन (आई० सी०-50282 ए), आर्टिलरी ।

शमशेर सिंह (आई० सी०-50283 एच) इन्फैन्ट्री ।

आदित्य विक्रम सिंह राठी (आई० सी०-50284 एम),  
इन्फैन्ट्री ।

दीपेन्द्रा सिंह भेन्गार (आई० सी०-50285 एन),  
आर्टिलरी ।

विजय पाल सिंह दहिया (आई० सी०-50286 डब्ल्यू),  
आर्टिलरी ।

कुलवीर सिंह मनेवाल (आई० सी०-50287 वाई)  
ए० सी० ।

सुशील कुमार (आई० सी०-50288 एफ), ई० एम० ई०  
गुरजीत सिंह सन्धू (आई० सी०-50289 के),  
इन्फैन्ट्री ।

टी० जे० अजीय कुमार (आई० सी०-50290 वाई),  
इन्फैन्ट्री ।

प्रदीप कुमार (आई० सी०-50291 एफ), मैक० ।

राजेश सिंह (आई० सी०-50292 के), इन्जीनियर्स ।

धान सिंह विष्ट (आई० सी०-50293 एम) ए० ओ०  
सी० ।

विजयविठल के० गुडी (आई० सी०-50294 पी),  
सिगनल ।

रणवीर सिंह लाम्बा (आई० सी०-50295 एक्स),  
आर्टिलरी ।

सन्दीप शीतल (आई० सी०-50296 ए), इन्फैन्ट्री ।

पुनीत कपूर (आई० सी०-50297 एच), ई० एम० ई० ।

पंकज फोतेवार (आई० सी०-50298 एल), सिगनल ।

अनिल कुमार मोर (आई० सी०-50299 एन),  
इन्फैन्ट्री ।

विनोद कुमार कालरा (आई० सी०-50300 एक्स)  
ए० ओ० सी० ।

नवदीप बरार (आई० सी०-50301 ए), आर्टिलरी ।

विकाश कुमार (आई० सी०-50302 एच), ई० एम० ई० ।

मनीष श्रुग (आई० सी०-50303 एल), सिगनल ।

राजन यशिक (आई० सी -50304 एन), इन्फैन्ट्री ।

रवि नवेत (आई० सी०-50305 डब्ल्यू), इन्जीनियर्स ।

अरविन्द चांडान (आई० सी०-50306 वाई), इन्फैन्ट्री ।

मोहित महेंद्रू (आई० सी -50307 एफ), ए०  
एम० सी० ।

अनुराज एम० मगत (आई० सी०-50308 के),  
सिगनल ।

गजेन्द्रा सिंह दमोन्दी (आई० सी -50309 एम),  
मैक० ।

अजय नन्द खन्डगी (आई० सी०-50310 एफ),  
ई० एम० ई० ।

परमन्याय सिंह पथेजा (आई० सी -50311 के),  
इन्फैन्ट्री ।

गुरविन्दर सिंह (आई० सी०-50312 एम) आर्टिलरी ।

मोहित त्रिवेदी (आई० सी०-50313 पी), इन्फैन्ट्री ।

करनैल सिंह (आई० सी०-50314 एक्स), आटिलरी ।  
 दीपेन्द्रा मालराय (आई० सी०-50315 ए), इन्फैन्ट्री ।  
 गुडम वेंकटा शेषी रेड्डी (आई० सी०-50316 एच),  
 आटिलरी ।  
 महेन्द्रा सिंह पायल (आई० सी०-50317 एल)  
 सिगनल ।  
 राजेश सिन्हा (आई० सी०-50318 एन), ई० एम० ई० ।  
 शिवकुमार बी० ससलात्ती (आई० सी०-50319  
 डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री ।  
 मनीष लूथरा (आई० सी०-50320 एल०), इन्फैन्ट्री ।  
 प्रताप सिंह रानवत (आई० सी०-50321 एन),  
 ए० सी० ।  
 राम चन्द्र यादव (आई० सी०-50322 डब्ल्यू),  
 इन्फैन्ट्री ।  
 गोविन्द सिंह तनवर (आई० सी०-50323 वाई),  
 इन्फैन्ट्री ।  
 एस० सोरज (आई० सी०-50324 एफ), ए० एस०  
 सी० ।  
 रघुबीर सिंह भास्कर (आई० सी०-50325 के),  
 ए० एम० सी० ।  
 सोरभ सिन्हा (आई० सी०-50326 एफ), ए० ओ०सी० ।  
 राय मिह गुजर (आई० सी०-50327 पी), इन्फैन्ट्री ।  
 अमिष चडा (आई० सी०-50328 एक्स), इन्फैन्ट्री ।  
 प्रभजोत सिंह भाट्टी (आई० सी०-50329 ए),  
 आटिलरी ।  
 गुरबचश सिंह (आई० सी०-50330 पी), आटिलरी ।  
 वीर मेहता (आई० सी०-50331 एक्स), ए० ओ० सी० ।  
 रंजय जोर्ज (आई० सी०-50332 ए), मैक० ।  
 मनीष सरिन (आई० सी०-50333 एच), इन्फैन्ट्री ।  
 जसपाल सिंह मदान (आई० सी०-50334 एल), ई०  
 एम० ई० ।  
 भूपिन्द्र पाल सिंह (आई० सी०-50335 एन), इन्जीनियर्स ।  
 सत्यामूर्ति (आई० सी०-50336 डब्ल्यू), ए० ओ० सी० ।  
 तरुण अग्रवाल (आई० सी०-50337 वाई), आटिलरी ।  
 मनोज मास्तराय सलसकर (आई० सी०-50338 एफ),  
 इन्जीनियर्स ।  
 राजेन केरी (आई० सी०-50339 के), ए० सी० ।

बोद्धे परिवार (आई० सी०-50340 वाई), आटिलरी ।  
 जगप्रीत सिंह (आई० सी०-50341 एफ) ए०एस०सी० ।  
 एम० मृगनाथम (आई० सी०-50342 के), आटिलरी ।  
 अधेश कौशिक (आई० सी०-50343 एम), ए० सी० ।  
 गोतम पेंटल (आई० सी०-50344 पी), ए० एस० सी० ।  
 मोहित नांगिया (आई० सी०-50345 एक्स), इन्जीनियर्स  
 विजय कुमार गुर्ग (आई० सी०-50347 एच),  
 इन्फैन्ट्री ।  
 सुनील चौहान (आई० सी०-50348 एल), आटिलरी ।  
 जोस वर्सेस (आई० सी०-50349 एन), ई० एम० ई० ।  
 हरिन्द्र सिंह मिद्धू (आई० सी०-50350 एच), इन्फैन्ट्री ।  
 अजय फिरोज शाह (आई० सी०-50351 एल),  
 इन्फैन्ट्री ।  
 करुमानची सोलोमन राजा कुमार (आई० सी०-  
 50352 एन), आटिलरी ।  
 आणुतोप कुमार (आई० सी०-50353 डब्ल्यू),  
 इन्फैन्ट्री ।  
 अवानिन्दर सिंह मलहोत्रा (आई० सी०-50354 वाई),  
 इन्फैन्ट्री ।  
 शान्ता कुमारन पी० ए० (आई० सी०-50355 पी),  
 इन्फैन्ट्री ।  
 राजेश कृष्ण (आई० सी०-50356 के), ए० सी० ।  
 वि.एस. जसवाल (आई० सी०-50357 एम), आटिलरी ।  
 अजय सोनी (आई० सी०-50358 पी), आटिलरी ।  
 परमवीर सिंह (आई० सी०-50360 एम), ए० ओ०  
 सी० ।  
 विजय कुमार शर्मा (आई० सी०-50361 पी), ई०  
 एम० ई० ।  
 मन्तोप कुमार जायसवाल (आई० सी०-50362 एक्स),  
 मैक० ।  
 जे० सन्तू सावका राम (आई० सी०-50363 ए),  
 इन्जीनियर्स ।  
 नवीन राठी (आई० सी०-50364 एच), आटिलरी ।  
 शैलेन्द्रा श्रीधर करहेड (आई० सी०-50365 एल),  
 सिगनल ।  
 अनिल पाठक (आई० सी०-50366 एन), आटिलरी ।  
 धन्यजम टिकेन्द्रा सिंह (आई० सी०-50367 डब्ल्यू),  
 इन्फैन्ट्री ।

उपेन्द्र सिंह कन्दिल (आई० सी०-50368 बाई),  
आटिलरी ।

शंभु मुधाकर साठे (आई० सी०-50369 एफ),  
इन्फैन्ट्री ।

विनोद कुमार वर्गावा (आई० सी०-50370 डब्ल्यू),  
इन्फैन्ट्री ।

माजन सिंह नेहरा (आई० सी०-50371 बाई),  
इन्फैन्ट्री ।

गुरुदीप सिंह गिल (आई० सी०-50372 एफ),  
ए० एम० सी० ।

मन्दीप भारद्वाज (आई० सी०-50373 के), ए०  
एम० सी० ।

विवेक माथुर (आई० सी०-50374 एम), इन्जीनियर्स ।

अरुण कुमार गोतम (आई० सी०-50375 पी),  
इन्फैन्ट्री ।

बीरेन्द्र सिंह राठी (आई० सी०-50376 एक्स),  
ई० एम० ई० ।

पी० काले मोहन (आई० सी०-50377 ए), ई०  
एम० ई० ।

पी० जी० सुरेश कुमार (आई० सी०-50378 एच),  
आटिलरी ।

सजीव कुमार (आई० सी०-50379 एल), इन्फैन्ट्री ।

नीरज पुञ्जकरण (आई० सी०-50380 ए), ई० एम०  
ई० ।

शमशेर सिंह कुलर (आई० सी०-50381 एच), इन्फैन्ट्री ।

मन्तोप कुमार नायर (आई० सी०-50382 एल),  
इन्फैन्ट्री ।

योगेश सरदाना (आई० सी०-50383 एन), सिगनल ।

शिखि देशपाण्डे (आई० सी०-50384 डब्ल्यू),  
सिगनल ।

डी० नन्दन पाण्डे (आई० सी०-50385 बाई),  
ए० सी० ।

संजय कुमार दत्ता (आई० सी०-50386 एफ),  
इन्फैन्ट्री ।

नरेन्द्र सिंह नेगी (आई० सी०-50387 के), ए०  
ओ० सी० ।

जैदेव गोपाल सृरी (आई० सी०-50388 एम),  
ए० सी० ।

सुबोध कुमार (आई० सी०-50389 पी), ए० ओ० सी० ।

अरुण कुमार मिश्रा (आई० सी०-50390 के), इन्फैन्ट्री ।

राज किसनानी (आई० सी०-50391 एम), आटिलरी ।

सेठ सुदेश चन्द्रकान्त (आई० सी०-50392 पी),  
इन्जीनियर्स ।

विक्रमजीत सिंह गिल (आई० सी०-50393 एक्स),  
आटिलरी ।

जयचन्द्रन सी० जे० (आई० सी०-50394 ए),  
इन्जीनियर्स ।

पंकज सती (आई० सी०-50395 एच), इन्फैन्ट्री ।

प्रीतपाल सिंह बंगा (आई० सी०-50397 एन),  
सिगनल ।

राजकुमार किसन पेंचाकर (आई० सी०-50398  
डब्ल्यू), आटिलरी ।

कपिल हाण्डा (आई० सी०-50399 बाई), सिगनल ।

नरेन्द्र सिंह ठकद (आई० सी०-50400 एच), ई०  
एम० ई० ।

नाइक मनीष शशिकान्त (आई० सी०-50401 एल),  
इन्फैन्ट्री ।

अमर अशोक बपत (आई० सी०-50402 एन),  
इन्फैन्ट्री ।

अतलमुकुन्द राव मलूखे (आई० सी०-50403 डब्ल्यू),  
ए०सी० ।

अनिरवन दत्ता (आई० सी०-50404 बाई), इन्फैन्ट्री ।

बीरेन्द्र कुमार (आई० सी०-50405 एफ) आटिलरी ।

गगन दीप (आई० सी०-50406 के), इन्फैन्ट्री ।

मनमोहन सिंह (आई० सी०-50407 एम), इन्फैन्ट्री ।

संजय कुमार लाकरा (आई० सी०-50408 पी),  
ई० एम० ई० ।

चतन धीमन (आई० सी०-50409 एक्स), इन्फैन्ट्री ।

श्रद्धिन्ध्या कुमार वर्मा (आई० सी०-50410 एम),  
इन्फैन्ट्री ।

वीरन्द्र सिंह राठीर (आई० सी०-50411 पी), आटिलरी

जसवन्त सिंह (आई० सी०-50412 एक्स), ए० एम० सी० ।

सुरेश रामेश्वर शर्मा (आई० सी०-50413 ए),  
आटिलरी ।

अनूप अल्कारजन (आई० सी०-50414 एच) ई०  
एम० ई० ।

रघुनन्दन सिंह जसरोनिया (आई० सी०-50416 एन),  
मैक० ।

अमित शर्मा (आई० सी०-50417 डब्ल्यू), ए० ओ० सी० ।  
 मतवीर सिंह गिल (आई० सी०-50418 बाई), इन्फैन्ट्री ।  
 सुनील कुमार दलाल (आई० सी०-50419 एफ),  
 ए० सी० ।  
 जिनेन्द्र दामोदर सहस्रबुद्धी (आई० सी०-50420  
 एम), इन्फैन्ट्री ।  
 अशोक मिश्रा (आई० सी०-50421 बाई), इन्फैन्ट्री ।  
 रवि शंकर आर० (आई० सी०-50422 एफ),  
 ई० एम० ई० ।  
 अजय बशिष्ठ (आई० सी०-50423 के), आर्टिलरी ।  
 जोशी प्रमत्ता मुधाकर (आई० सी०-50424 एम),  
 मॅक० ।  
 उपेन्द्र सिंह राघव (आई० सी०-50425 पी), इन्फैन्ट्री ।  
 राजीव वी० वैद्य (आई० सी०-50426 एक्स),  
 ए० ओ० सी० ।  
 आर० के० सुरेश कुमार (आई० सी०-50427 ए),  
 इन्फैन्ट्री ।  
 मनजिन्दर सिंह भिडर (आई० सी०-50428 एच),  
 इन्फैन्ट्री ।  
 नरेश कुमार (आई० सी०-50429 एल), आर्टिलरी ।  
 मजीब अहलावत (आई० सी०-50430 ए), ए०  
 एम० सी० ।  
 विपिन कुमार (आई० सी०-50431 एच), आर्टिलरी ।  
 गोविन्द राम चौधरी (आई० सी०-50432 एल),  
 इन्फैन्ट्री ।  
 प्रेम सिंह सिकारवर (आई० सी०-50434 डब्ल्यू),  
 ए० एम० सी० ।  
 भद्रिद्या अनिल भजनसिंह (आई० सी०-50435  
 बाई), आर्टिलरी ।  
 मनोज रंजन (आई० सी०-50436 एफ), इन्जीनियर्स ।  
 गह्वल यादव (आई० सी०-50437 के), मिगनल ।  
 शिव दयाल सिंह देवल (आई० सी०-50438 एम),  
 आर्टिलरी ।  
 मन्दिर् सिंह (आई० सी०-50439 पी), इन्जीनियर्स ।  
 हेमन्त पेजिग (आई० सी०-50440 के), इन्फैन्ट्री ।  
 प्रगट सिंह (आई० सी०-50441 एम), ए० सी० ।  
 जे० मजीब (आई० सी०-50442 पी), इन्फैन्ट्री ।

राजीव कुमार जून (आई० सी०-50443 एक्स),  
 इन्फैन्ट्री ।  
 वरपान सुद (आई० सी०-50444 ए), मिगनल ।  
 सुनील राणा (आई० सी०-50445 एच), ए० एम० सी० ।  
 हरविन्द परमार (आई० सी०-50446 एल),  
 सबिन्वर बिरडी (आई० सी०-50447 एन), इन्फैन्ट्री ।  
 यशपाल यादव (आई० सी०-50448 डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री ।  
 प्रवीण शंकर त्रिपाठी (आई० सी०-50449 बाई),  
 ए० एम० सी० ।  
 शास्तनु चौधरी (आई० सी०-50450 एन), इन्फैन्ट्री ।  
 महेन्द्र सिंह (आई० सी०-50451 डब्ल्यू), आर्टिलरी ।  
 धननजय पालसोकर (आई० सी०-50452 बाई),  
 इन्फैन्ट्री ।  
 आशिम चौधरी (आई० सी०-50453 एफ),  
 इन्जीनियर्स ।  
 अशोक यादव (आई० सी०-50454 के), आर्टिलरी ।  
 अमन भस्ला (आई० सी०-50455 एम), इन्जीनियर्स ।  
 विकास शर्मा (आई० सी०-50456 पी), आर्टिलरी ।  
 चन्द्र शेखर शर्मा (आई० सी०-50457 एक्स), ए०  
 एम० सी० ।  
 मुमित सूर (आई० सी०-50458 ए), ई० एम० ई० ।  
 गजेन्द्र सिंह राठौर (आई० सी०-50459 एच), ए० सी० ।  
 जसवीर सिंह बाथ (आई० सी०-50460 एक्स), आर्टिलरी  
 हर्ष वधन दुबे (आई० सी०-50461 ए), ए० ओ०  
 सी० ।  
 गगन दीप सिंह (आई० सी०-50462 एच), इन्फैन्ट्री ।  
 ईश्वर सिंह थापा (आई० सी०-50463 एल), इन्फैन्ट्री ।  
 के० सधियामति (आई० सी०-50464 एन), ए० ओ०  
 सी० ।  
 विद्या नितिन विलास (आई० सी०-50465 डब्ल्यू),  
 मिगनल ।  
 नरेश कुमार (आई० सी०-50466 बाई), आर्टिलरी ।  
 विश्वेक तोटियाल (आई० सी०-50467 एफ), मिगनल ।  
 राजीव कुमार (आई० सी०-50468 के), इन्फैन्ट्री ।  
 अनिल रमण (आई० सी०-50469 एम), इन्फैन्ट्री ।  
 तालुम दुबी (आई० सी०-50470 एफ), इन्फैन्ट्री ।  
 मेहरवान सिंह ब्राजवा (आई० सी०-50471 के),  
 इन्फैन्ट्री ।

निलेश ए० साल्बी (आई० सी०-50472 एम), मैक० ।  
 मण मेयर (आई० सी०-50473 पी), इन्फैन्ट्री ।  
 गनेश भट (आई० सी०-50475 ए), आर्टिलरी ।  
 अमित भटनागर (आई० सी०-50476 एच), ए०  
 एस० सी० ।  
 कुलबन्त कटारिया (आई० सी०-50477 एल), इन्फैन्ट्री ।  
 मिथिलेश कुमार बवानी (आई० सी०-50478 एन),  
 सिगनल ।  
 राजे औन (आई० सी०-50479 डब्ल्यू), सिगनल ।  
 रमण दादा (आई० सी०-50480 एल), इन्फैन्ट्री ।  
 रणजीत सिंह (आई० सी०-50481 एन), इन्फैन्ट्री ।  
 वका भाष्कर रेड्डी (आई० सी०-50482 डब्ल्यू),  
 ए० एस० सी० ।  
 ऋषिसक्ती श्री नागेश आई० सी०-50483 वाई),  
 ई० एम० ई० ।  
 नरेश कुमार यादव (आई० सी०-50484 एफ),  
 ए० एस० सी० ।  
 दिगविजय सिंह पट्टियाल (आई० सी०-50485 के),  
 इन्फैन्ट्री ।  
 शरदेन्दु धर पाण्डे (आई० सी०-50486 एम), आर्टिलरी ।  
 सन्केत देव (आई० सी०-50487 पी), आर्टिलरी ।  
 ई० थोमन जोसफ (आई० सी०-50488 एक्स),  
 इन्ट० ।  
 कुमार अभिवेक (आई० सी०-50489 ए), इन्जीनियर्स ।  
 जोशालागोड्डा वेंकटा भाष्कर वेंकटेश्वर (आई० सी०-  
 50490 पी), ई० एम० ई० ।  
 बिनोद वाजिया (आई० सी०-50491 एक्स), इन्फैन्ट्री ।  
 नवराज सिंह ग्रेवाल (आई० सी०-50492 ए), इन्फैन्ट्री ।  
 कंवर प्रयाग सिंह (आई० सी०-50493 एच), इन्फैन्ट्री ।  
 अरुण हरिहरण (आई० सी०-50494 एल) इन्जीनियर्स ।  
 रबिन्द्र नाथ चौधरी (आई० सी०-50495 एन),  
 आर्टिलरी ।  
 रमेन्द्र कुमार वाजपेयी (आई० सी०-50496 डब्ल्यू),  
 ई० एम० ई० ।  
 सन्दीप शेखावत (आई० सी०-50497 वाई), इन्फैन्ट्री ।  
 संजीव सूष (आई० सी०-50498 एफ), सिगनल ।

मनजिन्दर सिंह (आई० सी०-50500 एन), इन्फैन्ट्री ।  
 प्रदीप कुमार चौधरी (आई० सी०-50501 डब्ल्यू),  
 आर्टिलरी ।  
 अजय कुमार (आई० सी०-50502 वाई), ए० ओ० सी० ।  
 भान्तनु रशी (आई० सी०-50503 एफ), इन्जीनियर्स ।  
 समय सिंह (आई० सी०-50504 के), इन्फैन्ट्री ।  
 सुशील कुमार सिंह (आई० सी०-50505 एम), आर्टिलरी ।  
 सर्वजीत सिंह ओबराय (आई० सी०-50506 पी),  
 मैक० ।  
 शिशुपाल सिंह पनवर (आई० सी०-50507 एक्स),  
 ए० एस० सी० ।  
 वेवाशीश बोष (आई० सी०-50508 ए), सिगनल ।  
 अनुराग ज्योति (आई० सी०-50509 एच), ए० सी० ।  
 अखिलेश कुमार यादव (आई० सी०-50510 एक्स),  
 ए० सी० ।  
 जोबो जोसफ (आई० सी०-50511 ए), इन्फैन्ट्री ।  
 अनिनध्या राय चौधरी (आई० सी०-50512 एच),  
 ए० ओ० सी० ।  
 प्रवीण शर्मा (आई० सी०-50513 एन), आर्टिलरी ।  
 विवेकजीत सिंह (आई० सी०-50514 एन), इन्जीनियर्स  
 के० नरेन्द्र सिंह (आई० सी०-50515 डब्ल्यू), इन्जीनियर्स ।  
 के० आनन्द (आई० सी०-50516 वाई) आर्टिलरी ।  
 इन्द्र प्रीत सिंह नन्दा (आई० सी०-50517 एफ), इन्फैन्ट्री ।  
 वल्लकाले विवेक रमेश (आई० सी०-50518 के),  
 इन्फैन्ट्री ।  
 अर्जुन यादव (आई० सी०-50519 एम), ए० सी० ।  
 राकेश चन्द जैसवाल (आई० सी०-50520 एफ), इन्फैन्ट्री ।  
 राय सिंह गेदरा (आई० सी०-50521 के) मैक० ।  
 जेम्स बलराज कोर्नेलियस (आई० सी०-50522 एम),  
 ए० सी० ।  
 ज्ञानेन्द्र सिंह तिवारिया (आई० सी०-50523 पी),  
 इन्फैन्ट्री ।  
 नवीन थापा (आई० सी०-50524 एक्स), इन्फैन्ट्री ।  
 सन्दीप छिकारा (आई० सी०-50525 ए), आर्टिलरी ।  
 प्रेम किशोर पी० (आई० सी०-50526 एच), ए० एस०  
 सी० ।  
 अजीत पी० वारुशीश (आई० सी०-50527 एल),  
 इन्जीनियर्स ।

राजेश मेहता (आई० सी०-50528 एन), इन्फैन्ट्री ।  
 विजू सुन्दरेश (आई० सी०-50529 डब्ल्यू), आर्टिलरी ।  
 उमेश कुमार ओझा (आई० सी०-50530 एल),  
 इन्फैन्ट्री ।  
 पीयूष मोहन (आई० सी०-50531 एन), आर्टिलरी ।  
 विजय कुमार तिवारी (आई० सी०-50532 डब्ल्यू),  
 सिगनल ।  
 श्रेखरामन्द मिश्रा (आई० सी०-50533 वाई), सिगनल ।  
 अदिल इमरान (आई० सी०-50534 एफ), ए० ओ०  
 सी० ।  
 कुलवन्त सिंह (आई० सी०-50535 के), ए० एस० सी० ।  
 प्रतीक सक्सेना (आई० सी०-50536 एम), आर्टिलरी ।  
 अरविन्द कुमार सिंह (आई० सी०-50537 पी), ई०  
 एम० ई० ।  
 अनिरुद्धा सेन (आई० सी०-50538 एक्स), ई० एम० ई० ।  
 चन्द्र श्रेखर आजाद (आई० सी०-50539 ए), आर्टिलरी ।  
 सुदीप राय (आई० सी०-50540 पी), सिगनल ।  
 नन्दूरी वेनू गोपाल (आई० सी०-50541 एक्स), इन्फैन्ट्री ।  
 दिनेश सहगल (आई० सी०-50543 एच), ए० ओ० सी० ।  
 सुरेन्द्र महानी (आई० सी०-50544 एल), ए० सी० ।  
 चिन्माया मधवाल (आई० सी०-50545 एन), इन्फैन्ट्री ।  
 पी० पी० रविन्द्रानाथ (आई० सी०-50546 डब्ल्यू),  
 सिगनल ।  
 कृपाल सिंह (आई० सी०-50547 वाई), आर्टिलरी ।  
 सहयोग मुभा (आई० सी०-50548 एफ), इन्फैन्ट्री ।  
 लक्ष्मी ओजित मिसाल (आई० सी०-50549 के),  
 इन्फैन्ट्री ।  
 राजेश राजराज (आई० सी०-50550 वाई), इन्फैन्ट्री ।  
 सुभाष चन्द्र प्रधान (आई० सी०-50551 एफ),  
 आर्टिलरी ।  
 सीमान्त कायरा (आई० सी०-50552 के), ई० एम०  
 ई० ।  
 राकेश कुमार छहर (आई० सी०-50553 एम),  
 ई० एम० ई० ।  
 गुरुमीत सिंह (आई० सी०-50554 पी), सिगनल ।  
 प्रवीण देव (आई० सी०-50555 एक्स), ए० एस० सी० ।  
 अजीत कुमार गोरान (आई० सी०-50556 ए),  
 आर्टिलरी ।

के० पी० राजेन्द्रा कुमार (आई० सी०-50557 एच)  
 इन्जिनियर्स ।  
 अनिल कुमार पोखरियाल (आई० सी०-50558 एल),  
 इन्जिनियर्स ।  
 मनिन्दर अहलूवालिया (आई० सी०-50559 एन),  
 इन्फैन्ट्री ।  
 रामविन्द्रा सिंह (आई० सी०-50560 एच), इन्फैन्ट्री ।  
 राजीव शर्मा (आई० सी०-50561 एल), आर्टिलरी ।  
 रंजन मदन (आई० सी०-50562 एन), इन्फैन्ट्री ।  
 जितेन्द्र बेनीवाल (आई० सी०-50563 डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री ।  
 सोहन सिंह दानू (आई० सी०-50564 वाई), इन्फैन्ट्री ।  
 विनायक कोन्वीराम जाधव (आई० सी०-50565 एफ),  
 इन्फैन्ट्री ।  
 कनोजीया राजेश विपत कुमार (आई० सी०-50567  
 एम), इन्फैन्ट्री ।  
 विकास चौधरी (आई० सी०-50568 पी), इन्फैन्ट्री ।  
 वेवेन्द्र कुमार मैथानी (आई० सी०-50569 एक्स),  
 इन्जिनियर्स ।  
 अभिजीत राय (आई० सी०-50570 एम०), इन्फैन्ट्री ।  
 अमजद जुल्फीकार (आई० सी०-50571 पी), ई०  
 एम० ई० ।  
 अरुण गनेशराव पाथाडे (आई० सी०-50572 एक्स),  
 आर्टिलरी ।  
 अनिल गेरशी (आई० सी०-50573 ए), इन्फैन्ट्री ।  
 अरविन्दर सिंह बिन्ना (आई० सी०-50574 एच),  
 ई० एम० ई० ।  
 कदम मनीष शशीकान्त (आई० सी०-50575 एल),  
 इन्फैन्ट्री ।  
 नीरज शर्मा (आई० सी०-50576 एन), ई० एम० ई० ।  
 तनमय भिन्हा (आई० सी०-50577 डब्ल्यू), आर्टिलरी ।  
 महेशिन्दर सिंह (आई० सी०-50578 वाई), इन्फैन्ट्री ।  
 प्रवीण श्री० (आई० सी०-50579 एफ), इन्जिनियर्स ।  
 औम्मान टी० जेकरव (आई० सी०-50580 डब्ल्यू),  
 आर्टिलरी ।  
 आलोक कुमार सिंह (आई० सी०-50581 वाई),  
 आर्टिलरी ।  
 संजय त्रिपाठी (आई० सी०-50582 एफ), सिगनल ।

चरण सिंह बसवाना (आई० सी०-50583 के),  
इन्जीनियर्स ।

के० श्रीनिवास (आई० सी०-50584 एम), आर्टिलरी ।

सतीश चारी (आई० सी०-50585 पी), ए० सी० ।

एम० पी० अरविन्द (आई० सी०-50586 एक्स),  
सिगनल ।

गुरप्रीत सिंह (आई० सी०-50587 ए), इन्फैन्ट्री ।

कुलजिन्दर सिंह अहलूवालिया (आई० सी०-50588  
एच), मेक० ।

जोसफ अन्थोनी (आई० सी०-50589 एल), ए०  
एम० सी० ।

मनप्रीत सिंह चौधरी (आई० सी०-50590 ए), इन्फैन्ट्री ।

कमल किशोर सिंह (आई० सी०-50592 एल), इन्फैन्ट्री ।

पुनित दत्ता (आई० सी०-50593 एन), इन्फैन्ट्री ।

देवाधीश पाल (आई० सी०-50594 डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री ।

जमबन्त सिंह (आई० सी०-50595 वाई), इन्जीनियर्स ।

सुबे सिंह धुकराना (आई० सी०-50596 एफ), इन्फैन्ट्री ।

कुलजिन्दर सिंह कोन्दल (आई० सी०-50597 के),  
इन्फैन्ट्री ।

चन्दन कुमार (आई० सी०-50598 एम०), इन्फैन्ट्री ।

सुदर्शन सिंह (आई० सी०-50599 पी०), आर्टिलरी ।

संजीव श्रीवास्तव (आई० सी०-50600 वाई), सिगनल ।

मोहम्मद गफ्फार (आई० सी०-50601 एफ), ए० सी० ।

अतिन्दर सिंह (आई० सी०-50602 के), इन्फैन्ट्री ।

शिवकुमार मदागिषन (आई० सी०-50603 एम),  
आर्टिलरी ।

विक्रम सिंह चौहान (आई० सी०-50604 पी), ए०  
एम० सी० ।

अतमेश बेनीवाल (आई० सी०-50605 एक्स),  
ए० ओ० सी० ।

राजीव दलेला (आई० सी०-50606 ए), ई० एम० ई० ।

कमलजीत सिंह पागला (आई० सी०-50607 एच),  
आर्टिलरी ।

रूपेन्द्र थापा (आई० सी०-50608 एल), इन्फैन्ट्री ।

कामथ प्रशांत नारायण (आई० सी०-50609 एन),  
आर्टिलरी ।

असुल कुमार (आई० सी०-50610 एच), आर्टिलरी ।

प्रसीक हामल (आई० सी०-50611 एल), ए० सी० ।

रघुनाथ सिंह शेखावन (आई० सी०-50612 एन),  
इन्फैन्ट्री ।

सत्येन्द्र वर्मा (आई० सी०-50613 डब्ल्यू), सिगनल ।

राकेश कुमार गौतम (आई० सी०-50614 वाई), ए०  
एम० सी० ।

जैशील कौशल (आई० सी०-50615 एफ), ई० एम०  
ई० ।

सुनील शान्कता (आई० सी०-50616 के), ए० सी० ।

अनिल तिवारिया (आई० सी०-50617 एम), आर्टिलरी ।

अरूप दाम गुप्ता (आई० सी०-50618 पी), ई० एम०  
ई० ।

विनोद दिवाकरन (आई० सी०-50619 एक्स), इन्फैन्ट्री ।

मनीश शर्मा (आई० सी०-50620 एम), ए० एम० सी० ।

हरजिन्दर पाल सिंह धामी (आई० सी०-50621 पी)  
इन्फैन्ट्री ।

मनीष शर्मा (आई० सी०-50622 एक्स), इन्फैन्ट्री ।

सी० के० राजेश (आई० सी०-50623 ए), मेक० ।

अमरदीप सिंह (आई० सी०-50624 एच), ए० ओ०  
सी० ।

शेख महमूद बशा (आई० सी०-50625 एल), इन्फैन्ट्री ।

नवजोत सिंह भाटी (आई० सी०-50626 एन), इन्फैन्ट्री ।

अनूप दिओली (आई० सी०-50627 डब्ल्यू), आर्टिलरी ।

आशीष गुप्ता (आई० सी०-50628 वाई), इन्जीनियर्स ।

मंजीव बबेजा (आई० सी०-50629 एफ), सिगनल ।

नरेन्द्र पाल सिंह ट्टर (आई० सी०-50630 डब्ल्यू), ए०  
सी० ।

मनोज दत्त शर्मा (आई० सी०-50631 वाई), ए० ओ०  
सी० ।

गगन खन्ना (आई० सी०-50632 एफ), इन्जिनियर्स ।

वीरेन्द्र मोहन बम्बी (आई० सी०-50633 के), मेक० ।

संजीव कुमार मारवाह (आई० सी०-50634 एम), ई०  
एम० ई० ।

एन० अनिल कुमार (आई० सी०-50635 पी), ई० एम०  
ई० ।

पी० के० प्रवीण कुमार पिल्ले (आई० सी०-50636 एक्स),  
आर्टिलरी ।

पराग सुरेश गुप्ते (आई० सी०-50637 ए), इन्फैन्ट्री ।



युजय घोष (आई० सी०-50638 एच), इन्जिनियर्स ।  
 पंकज भाधार अहलावत (आई० सी०-50639 एल), ए० ओ० सी० ।  
 अमर दीप सिंह (आई० सी०-50640 ए), इन्जिनियर्स ।  
 राजेश पंकज (आई० सी०-50642 एल), आर्टिलरी ।  
 प्रवीण कुमार भट्ट (आई० सी०-50643 एन), इन्फैन्ट्री ।  
 राजेश्वर सिंह विक्र (आई० सी०-50644 डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री ।  
 रविन्द्र सिंह दलाल (आई० सी०-50645 वार्ड), इन्फैन्ट्री ।  
 पवन कुमार (आई० सी०-50646 एक), इन्जिनियर्स ।  
 मंजय सहाय (आई० सी०-50647 के), ई० एम० ई० ।  
 अशोक कुमार (आई० सी०-50648 एम), आर्टिलरी ।  
 मुभाष धर (आई० सी०-50649 पी), इन्फैन्ट्री ।  
 दिनेश टी० (आई० सी०-50650 के), ए० सी० ।  
 अजय कुमार (आई० सी०-50651 एम), ए० ओ० सी० ।  
 राजीव वर्मा (आई० सी०-50652 पी), आर्टिलरी ।  
 जोशी परमानाथ शान्ताराम (आई० सी०-50653 एकस), इन्फैन्ट्री ।  
 आलोक भटनागर (आई० सी०-50654 ए), इन्फैन्ट्री ।  
 नवदीप चौधरी (आई० सी०-50655 एच), आर्टिलरी ।  
 जे० एस० प्रकाश (आई० सी०-50656 एल), इन्जिनियर्स ।  
 राजेश्वर सिंह (आई० सी०-50657 एन), इन्फैन्ट्री ।  
 राजेश कुमार बाली (आई० सी०-50658 डब्ल्यू) ए० एम० सी० ।

अशोक शर्मा,  
 ले० कर्नल,  
 म्यानापम्न ए० एम० एम० (आई० सी०)

सेना शाखा

सं० 1051, दिनांक 1992--राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

2/नेफिटनेट बनाया जाना है

(परख घर)

प्रवीण कुमार असलेटी (टीए-42119) इन्जिनियर्स—  
 17 नवम्बर, 1991।

जोस सिरियक, निदेशक (प्रसिद्धि)

2-334 GI/92

सैनिक अभियन्ता सेवाएं

सं० 1052, दिनांक 1992--राष्ट्रपति, एम० ई० एस०-438652, श्री रामभद्र दुबे, अधिष्ठात्री अभियन्ता को 10 अगस्त 92 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक अधीक्षक अभियन्ता के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

विद्युत और यांत्रिक इन्जीनियरी कोर

सं० , दिनांक 1992--राष्ट्रपति, श्री आर० पी० मखीजा, स्थाई वरिष्ठ वर्कशाप अधिकारी को वर्कशाप सुपरिन्डेंडेंट के पद पर नियुक्त विद्युत और यांत्रिक इन्जीनियरी कोर में दिनांक 1 अक्टूबर, 92 (पूर्वाह्न) में नियुक्त करते हैं।

एस० एस० नेगी, अवर मचिव

राष्ट्रीय कैबेट कोर

सं० 1053, दिनांक 1992--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पूर्णकालिक एनसीसी अफसरों को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 5431/पीसी-9/डीजीएनसीसी/एमएस (ए)/117/ए/डी/(जीएस-6) दिनांक 17 सितम्बर 1986 के प्रावधानों के अनुसार स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं। स्थायी कमीशन संबंध में उनकी पदोन्नति तथा वेतन के लिए वरिष्ठता की तारीख उनके नाम के सामने दी गई है:—

एन०सी०सी० पूर्णकालिक स्थायी कमीशन अफसर

(सेना स्कंध)

बी० के० कपूर (एनसीसी/पीसी-6014)	
पूर्णकालिक कमीशन सेवा की तारीख	29-09-72
पदोन्नति के लिए वरिष्ठता की तारीख	31-01-61
वेतन के लिए वरिष्ठता की तारीख	29-09-72
जे०के०डी०गर्ग (एनसीसी/पीसी-12281)	
पूर्णकालिक कमीशन सेवा की तारीख	28-09-73
पदोन्नति के लिए वरिष्ठता की तारीख	4-7-66
वेतन के लिए वरिष्ठता की तारीख	04-07-66

बी० डी० महापात्र, उप महानिदेशक  
 (पी० एण्ड एफ०)

वायु शाखा

सं० 1054, दिनांक 1992--राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वा०ने०मु०/एस-18731/689/यू०एस०/डी(एवर IV) तारीख 19 अप्रैल, 1983 के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित को स्थायी कमीशन तथा त्रिंज (एक वर्ष के लिए परन्तुधीन) प्रदान करते हैं।

यह अफसर स्थायी कमीशन तथा विरज (परखाधीन) प्राप्त करने की तारीख 14 दिसम्बर, 1991 में उद्यान वेतन पाने के हकदार है।

भारतीय वायु सेना

(भतपूर्व एन०डी० ए० कैंडेटो को पायलट अफसर के रैंक में)

मैथ्यू जॉन (21544)—11 दिसम्बर, 1991 में।

एच० वी० शर्मा, स्कॉड्रन लीडर,  
महायुक्त निदेशक का अफ 3(डी)

रक्षा मंत्रालय

रक्षा अनुसन्धान एवं विकास मण्डल

स० 1055, दिनांक 1992—राष्ट्रपति, निम्न-  
लिखित पदोन्नति करते हैं —

गैस टरबाइन अनुसन्धान स्थापना, वगलौर के श्री आर० पुरुषोत्तम, प्रशासन अधिकारी को 26-6-92 (पूर्वान्तर) में छह महीने तक या जब तक कोई नियमित पदधारी उपलब्ध नहीं होता, जो भी पहले हो, इसी प्रयोगशाला में स्थानापन्न बरिष्ठ प्रशासन अधिकारी ग्रेड-II (नदर्थ) के रूप में।

श्री० जे० ऐन्ड्र्यू, सहा० निदेशक  
(कार्मिक)

सेना विभाग

स० 1056, दिनांक 1992—राष्ट्रपति,  
निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं —

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

वे० कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में

पी० दत्ता (आई०सी०-22742 ए), आर्टिलरी—1 जून,  
1990 आर्टिलरी।

सी० वी० झलडीयाल (आई०सी०-8253) इजीनियर—  
1 अप्रैल, 1988।

एल० एम० राठौर (आई०सी०-140804 ए) इन्फैन्ट्री—  
23 फरवरी, 1987।

एस० सी० शर्मा (आई०सी०-15583 एफ)—इन्ट कोर—  
30 मई, 1988

परन्तु बरिष्ठता 23 फरवरी, 1987 में वेतन और पेशन पर लागू नहीं।

जी० एम० बाथ (आई०सी०-20384 एफ) इन्जीनियर—  
23 फरवरी, 1987।

जे० पी० वाजपई (आई०सी०-15364 के) ए०एम०सी०  
(एफ०आई०ओ०)—28 मार्च, 1989।

परन्तु बरिष्ठता 28 मई, 1986 में वेतन और पेशन पर लागू नहीं।

आर० आर० गोस्वामी (आई०सी०-19422 ए)  
इन्जीनियर्स—01 जनवरी, 1992।

जे० के० एस० सरांन (आई०सी०-19423 एच) इन्फैन्ट्री—  
01 जनवरी, 1992।

जेड० यू० शाह (आई०सी०-19429 के) आर्टिलरी—01  
जनवरी, 1992।

रामेन्द्र कुमार (आई०सी०-19430 एक्स) इन्फैन्ट्री—  
01 जनवरी, 1992।

बी के० गिरधर (आई०सी०-19432 के) सिगनल्स—01  
जनवरी, 1992।

वाई० आर० त्यागी (आई०सी०-19435 एक्स) आर्टिलरी—  
01 जनवरी 1992।

एस० के० सप्रू (आई०सी०-19436 ए) इन्फैन्ट्री—01  
जनवरी 1992।

आर० देशपाण्डे (आई०सी०-19438 एल) सिगनल्स—  
01 जनवरी 1992।

एस० शर्मा (आई०सी०-19440 एच) इन्फैन्ट्री—  
01 जनवरी 1992।

आर० एम० बैन्स (आई०सी०-19443 डब्ल्यू) ए०  
सी०—1 जनवरी 1992।

आर० चौपड़ा (आई०सी०-19445 एफ) आर्टिलरी—  
1 जनवरी 1992।

पी० एन० मेहरा (आई०सी०-19447 एम) इन्फैन्ट्री—  
1 जनवरी 1992।

सी० एस० भाटिया (आई०सी०-19455 एल)—  
इन्जीनियर्स—1 जनवरी 1992।

आर० पी० गोपाल (आई०सी०-19456 एन) ए०  
ओ० सी०—1 जनवरी 1992।

जे० आई० प्यूपलम् (आई०सी०-19457 डब्ल्यू)  
इन्फैन्ट्री—1 जनवरी 1992।

एस० एस० मान्धू (आई०सी०-19458 वाई) ए० ओ०  
सी०—1 जनवरी 1992।

इन्दरजीत सिंह (आई०सी०-19459 एफ) आर्टिलरी—  
1 जनवरी 1992।

एस० के० मेहता (आई०सी०-19468 एच) इन्फैन्ट्री—  
1 जनवरी 1992।

रघबीर सिंह (आई०सी०-19472 एल) इन्फैन्ट्री—  
1 जनवरी 1992।

- आर० सिंह (आई० सी०-19485 एच) इन्फैंट्री--  
1 जनवरी 1992 ।
- गुरमेल सिंह (आई० सी०-19488 डब्ल्यू) ए० एम०  
सी०--1 जनवरी 1992 ।
- तेजिन्दर सिंह (आई० सी०-19490 एच) आर्टिलरी--  
1 जनवरी 1992 ।
- एस० एस० मेदीरसा (आई० सी०-19499 एच)  
सिगनल्स--1 जनवरी 1992 ।
- ए० एन० शर्मा (आई० सी०-19505 एल) आर्टिलरी--  
--1 जनवरी 1992 ।
- पी० के० महाजन (आई० सी०-19506 एन) आर्टिलरी  
1 जनवरी 1992 ।
- सी० वी० विजन (आई० सी०-19510 डब्ल्यू) आर्टि-  
लरी--1 जनवरी 1992 ।
- वी० के० शिवावन (आई० सी०-19512 एफ) ए० आ०  
सी०--1 जनवरी 1992 ।
- जे० एम० मनकोटिया (आई० सी०-19513 के)  
इन्फैंट्री--1 जनवरी 1992 ।
- एम०ए०के० चांधरी (आई० सी०-19515 पी) आर्टिलरी--  
1 जनवरी 1992 ।
- आर० टडून (आई० सी०-19517 ए) आर्टिलरी--  
1 जनवरी 1992 ।
- राजेन्द्रा प्रताप (आई० सी०-16658 एन) आर्टिलरी--  
1 नवम्बर 1988 ।
- एस० यादव (आई० सी०-19362 डब्ल्यू) इन्जीनियर्स--  
6 जनवरी, 1989, परन्तु वरिष्ठता 1988 में वेतन  
और पेशन पर लागू नहीं ।
- राम सिंह (आई० सी०-22059 ए) इन्फैंट्री--  
1 फरवरी 1989 ।
- एन० एम० पील (आई० सी०-22790 ए) इन्ट कोर--  
1 जून 1990 ।
- विजय दीप (आई० सी०-17029 वाई) ए० आ०  
सी०--1 मार्च, 1991 ।
- ए० पी० देव (आई० सी०-26003 एल) आर्टिलरी--  
7 अक्टूबर 1991 ।
- आई० एस० सेठी (आई० सी०-22404 एच) ए० आ०  
सी०--1 अगस्त 1989 ।
- जी० आर० सी० राजन (आई० सी०-22839 ए) इन्जीनियर्स--  
1 फरवरी 1990 ।
- मेजर से ले० कर्नल के मूल रैंक में  
(समयमान द्वारा)
- वी० पी० एम० यादव (आई० सी०-24436 के)  
आर्टिलरी--14 जून 1991 ।
- मेजर से ले० कर्नल के मूल रैंक में (चयन द्वारा)
- पूरन सिंह (आई० सी०-17689 डब्ल्यू) आर्टिलरी--  
1 जनवरी 1991 ।
- के० के० भाटिया (आई० सी०-17826 के) आर्टिलरी--  
1 जनवरी 1991 ।
- ममरेन्द्र घाष (आई० सी०-23553 एच) इन्जीनियर्स--  
1 जनवरी, 1991 ।
- मन्तोष कुमार (आई० सी०-26509 के) आर्टिलरी--  
1 जनवरी 1991 ।
- एच० सी० नेट (आई० सी०-26675 एक्स) आर्टिलरी--  
1 जनवरी 1991 ।
- एम० एस० मरदेसाई (आई० सी०-26621 डब्ल्यू)  
आर्टिलरी--1 जनवरी 1991 ।
- पुष्कर पुरी (आई० सी०-19497 एक्स) आर्टिलरी--  
1 जनवरी 1991 ।
- पी० सी० माहा (आई० सी०-26426 वाई) आर्टिलरी--  
1 जनवरी 1991 ।
- रवीन्द्र मोहन (आई० सी०-19285 एम) आर्टिलरी--  
1 जनवरी 1991 ।
- आर० आई० मण्डारी (आई० सी०-26576 पी)  
आर्टिलरी--1 जनवरी 1991 ।
- निलक राज (आई० सी०-17305 डब्ल्यू) आर्टिलरी--  
1 फरवरी 1991 ।
- जगतार सिंह (आई० सी०-29190 ए) ई० एम० ई०--  
1 मई 1991 ।
- पी० डी० शर्मा (आई० सी०-26875 एन) आर्टिलरी--  
1 मई 1991 ।
- अशोक कश्यप (आई० सी०-26879 क) आर्टिलरी--  
1 मई 1991 ।
- मन्तोष सिंह (आई० सी०-26934 पी) आर्टिलरी--  
1 मई 1991 ।
- ए० एल० डी० कांटो (आई० सी०-26970 ए)  
आर्टिलरी--1 मई 1991 ।
- एन० एफ० चान्द (आई० सी०-28158 वाई) आर्टिलरी--  
1 मई 1991 ।
- राज किशोर (आई० सी०-28190 एन) आर्टिलरी--  
1 मई 1991 ।

एन० के० मल्होत्रा (आई० सी०-28200 एम) आर्टिलरी  
--1 मई 1991 ।

डी० एम० दिल्ली (आई० सी०-23268 के) आर्टिलरी  
--1 मई 1991 ।

पी० धी० चौधरी (आई० सी०-23284 एफ) आर्टिलरी  
--1 मई 1991 ।

बी० एस० गुर्म (आई० सी०-23321 के) आर्टिलरी--  
1 मई 1991 ।

बखशीण सिंह (आई० सी०-23331 एन) आर्टिलरी--  
1 मई 1991 ।

के० पी० डी० शमान्त (आई० सी०-23375 एन)  
आर्टिलरी--1 मई 1991 ।

पंकज कपूर (आई० सी०-23395 वाई) आर्टिलरी--  
1 मई 1991 ।

पी० एम० हमीद (आई० सी०-23401 एफ) आर्टिलरी  
--1 मई 1991 ।

गिरीश गोस्वामी (आई० सी०-23424 एच) आर्टी०  
--1 मई 1991 ।

वी० के० जोहर (आई० सी०-16613 के), सिग्नल--  
01 मई, 1988 ।

ए० स्वर्णापाण्डयन (आई० सी०-17938 के), एम०  
एफ०--22 जुलाई, 1991 परन्तु वरिष्ठता 02 मई, 1988  
में वेतन और पेशन पर लागू नहीं ।

टी० आर० रंजी (आई० सी०-17952 डब्ल्यू), ए० ई०  
सी०--21 सितम्बर, 1990 परन्तु वरिष्ठता 03 मई, 1988  
में वेतन और पेशन पर लागू नहीं ।

ए० एस० शर्मा (आई० सी०-24080 एफ), इंजीनियर  
--03 मई, 1988 ।

सी० डी० शर्मा (आई० सी०-26331 वाई), ई० एम०  
ई०--01 जनवरी, 1990 ।

बी० आई० एस० सोड़ी (आई० सी०-22646 एल),  
इन्फैन्ट्री--20 अप्रैल, 1988 परन्तु वरिष्ठता 03 अप्रैल, 1988  
में वेतन और पेशन पर लागू नहीं ।

ए० एन० सुपथी (आई० सी०-22707 एक्स), ए० ई०  
सी०--16 मई, 1989 परन्तु वरिष्ठता 03 अप्रैल, 1988 से  
वेतन और पेशन पर लागू नहीं ।

बसन्त सिंह (आई० सी०-22913 एफ), ए० ई० सी०--  
12 जुलाई, 1989 परन्तु वरिष्ठता 03 अप्रैल, 1988 से वेतन और  
पेशन पर लागू नहीं ।

एम० एम० भनवर (आई० सी०-20660 वाई), इंजीनियर  
--10 अक्टूबर, 1990 ।

वी० एन० नेरीकर (आई० सी०-19688 एम), इंजीनियर  
--15 अक्टूबर, 1990 ।

एम० गोपाल राय (आई० सी०-23541 एन), इंजीनियर  
--26 जून, 1991 ।

एन० धल (आई० सी०-23552 ए), इंजीनियर--  
08 जुलाई, 1991 ।

एम० जे० एस० बृक (आई० सी०-23563 एम), इंजीनियर  
--13 जून, 1991 ।

ई० जे० जोर्ज (आई० सी०-23646 एक्स), इंजीनियर  
--20 जून, 1991 ।

एम० एल० नन्दायोग (आई० सी०-22655 एन),  
इन्फैन्ट्री--04 जुलाई, 1987 ।

एस० जे० हण्डा (आई० सी०-19354 एक्स)--01  
अगस्त, 1988 ।

एस० टी० मणीमाला (आई० सी०-26046 ए), इन्ट कोर  
--01 फरवरी, 1990 परन्तु वरिष्ठता 03 मई, 1988 से वेतन  
और पेशन पर लागू नहीं ।

ए० के० सिंह (आई० सी०-28192 वाई), इंजीनियर--  
01 मई, 1991 ।

गीतम दस (आई० सी०-23266 वाई), इंजीनियर--  
01 मई, 1991 ।

एस० एस० गिल (आई० सी०-25365 ए), इंजीनियर  
--01 जून, 1991 ।

सन्तोष सिंह (आई० सी०-28297 एच), इंजीनियर--  
07 अक्टूबर, 1991 ।

आर० बी० सिंह (आई० सी०-28311 के), आर्टी०--07  
अक्टूबर, 1991 ।

वी० के० शर्मा (आई० सी०-28358 पी), इंजीनियर--  
07 अक्टूबर, 1991 ।

एस० के० वेद (आई० सी०-28572 एक्स), इंजीनियर  
--07 अक्टूबर, 1991 ।

आर० के० शर्मा (आई० सी०-28639 एल), इंजीनियर  
--07 अक्टूबर 1991 ।

ए० के० एस० परमार (आई० सी०-29142 ए),  
इंजीनियर--07 अक्टूबर, 1991 ।

आर० आर० मूर्ती (आई० सी०-28759 के), इंजीनियर  
--07 अक्टूबर, 1991 ।

के० थोमस (आई० सी०-25753 एक्स), इंजीनियर--  
07 अक्टूबर 1991 ।

ए० के० मूर्ती (आई० सी०-23784 वाई), आर्टी०--  
07 अक्टूबर, 1991 ।

मेहर चन्द (आई० सी०-23906 एक्स), आर्टी०--07  
अक्टूबर, 1991 ।

अनूज भाटिया (आई० सी०-23930 एन), आर्टी०--  
07 अक्टूबर, 1991 ।

बेदया शर्मा (आई० सी०-23946 वाई), आर्टी०--07  
अक्टूबर, 1991।

एम० एम० चौहान (आई० सी०-23955 ए), आर्टी०  
--07 अक्टूबर, 1991।

बी० एस० मान (आई० सी०-23961 एन), आर्टी०--  
07 अक्टूबर, 1991।

योगेश कुमार (आई० सी०-23966 एम), आर्टी०--  
07 अक्टूबर, 1991।

एस० एम० दलाल (आई० सी०-24012 एन), आर्टी०  
--07 अक्टूबर, 1991।

ए० के० गम्भीर (आई० सी०-19184 वाई), इंजीनियर  
--01 जनवरी, 1991।

ए० के० शर्मा,  
ले० कर्नल  
महायुक्त सेना सचिव

सं० 1057, दिनांक  
लिखित पधोन्नतियां करते हैं। --

--राष्ट्रपति, निम्न-

नियमित सेना

आसूचना कोर

(नायब सूबेदार के पद में)

हवलदार मदन सिंह रमोला (सं० 4058993 एन अब जे०  
सी०-223463 एल)--20 जून, 1992।

(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता दिनांक 01 मार्च, 1992  
से दी जाती है)।

हवलदार हरी कृष्ण (सं० 3977315 एल अब जे० सी०-  
223464 एन)--06 अप्रैल, 1992।

(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना वरिष्ठता दिनांक 01 मार्च, 1992 से दी जाती  
है)।

हवलदार मोहन सिंह (सं० 6912283 ए अब जे० सी०-  
223465 डब्ल्यू)--18 मई, 1992।

(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना वरिष्ठता दिनांक 01 अप्रैल, 1992 से  
दी जाती है)।

हवलदार नरिन्दर सिंह (सं० 3375946 पी अब जे०  
सी०-223466 वाई)--23 जून, 1992।

(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना वरिष्ठता दिनांक 01 मई, 1992 से दी  
जाती है)।

हवलदार विद्या सागर ठाकुर (सं० 13740989 डब्ल्यू  
अब जे० सी० 223467 एफ)--01 मई 1992।

हवलदार तेज बहादुर खडका (सं० 5844308 के अब जे०  
सी०-223468 के)--01 मई, 1992।

हवलदार रणजोध सिंह ठाकुर (सं० 3977478 डब्ल्यू अब  
जे० सी०-223469 एम)--11 जून, 1992।

(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना वरिष्ठता दिनांक 01 मई, 1992 से दी  
जाती है)।

हवलदार पाम्दुरंग (सं० 6373391 एच अब जे० सी०-  
223470 एफ)--13 जून 1992।

(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना वरिष्ठता दिनांक 01 मई 1992 से दी  
जाती है)।

हवलदार इट्टी के० एम० (सं० 14456918 डब्ल्यू अब  
जे० सी०-223471 के)--01 जून, 1992।

हवलदार अशोक कुमार द्विवेदी (सं० 14299737 पी अब  
जे० सी०-223472 एम)--10 जून, 1992।

(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना वरिष्ठता दिनांक 01 जून, 1992 से दी  
जाती है)।

नायब सूबेदार (लिपिक) के पद में

हवलदार (लिपिक) पीताम्बर सिंह नेगी (सं० 4161510  
एल अब जे० सी०-223473 पी)--01 जून, 1992।

हवलदार (लिपिक) महेश चन्द्र पाण्डेय (सं० 1252681  
एच अब जे० सी०-223474 एक्स)--13 जून, 1991।

(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना वरिष्ठता दिनांक 01 जून, 1992 से दी  
जाती है)।

हवलदार (लिपिक) विद्याधी गिरी (सं० 13845894  
पी अब जे० सी०-223475 ए)--01 जून, 1992।

हवलदार (लिपिक) रंगप्पा तलवार (सं० 2568921 एन  
अब जे० सी०-223476 एच)--02 जून, 1992।

(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता दिनांक 01 जून, 1992  
से दी जाती है)।

सं० 1058, दिनांक 1992—राष्ट्रपति,  
निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना  
कोर आफ मिलिट्री पुलिस  
नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार शान चन्द (सं० 7766441 के अब जे० सी०—  
223354 बाईं)—1 अप्रैल, 1992\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1992 से धी  
जायेगी) ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार जी० कृष्णा नायडू (सं० 7769248 एच अब  
जे० सी०—223355 एफ)—1 मई, 1992 ।

हवलदार विजय कुमार मिन्हा (सं० 7769269 वाई  
अब जे० सी०—223356 एफ)—1 मई, 1992 ।

डी० आर० शर्मा,  
अवर सचिव

-----

सं० 1059, दिनांक 1992—राष्ट्रपति  
निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना  
पायनियर कोर

सूबेदार मेजर (जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार (जी० डी०) गगन देव पासवान (जे० सी०—  
144742 पी)—1 अप्रैल, 1992 ।

सूबेदार (जी० डी०) राम राज मिश्रा (जे० सी०—  
144743 एक्स)—1 अप्रैल, 1992 ।

सूबेदार (जी० डी०) राम नारायण प्रसाद सिंह (जे०  
सी०—144744 ए)—1 अप्रैल, 1992 ।

सूबेदार (जी० डी०) धरम सिंह (जे० सी०—144745  
एच)—5 जून, 1992 ।

सूबेदार (जी० डी०) राम कुमार (जे० सी०—144746  
एल)—1 जुलाई, 1992 ।

सूबेदार मेजर क्लर्क (जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) इसीडोर यफ (जे० सी०—  
168798 ए)—1 अगस्त, 1992 ।

सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) राम नाथ राम  
(जे० सी०—178527 डब्ल्यू)—1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) जगत लाल टमटा  
(जे० सी०—187609 ए)—1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) धरम पाल सिंह  
(जे० सी०—187610 पी)—1 अगस्त, 1992 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) राम सिंह (जे० सी०—  
187611 एक्स)—1 अगस्त, 1992 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) नन्द किशोर (जे०  
सी०—187612 ए)—1 अगस्त, 1992 ।

वचन सिंह,  
निदेशक पायनियर्स

-----

सं० 1060, दिनांक 1992—राष्ट्रपति,  
निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

प्रारंभिक सेना

108 इन्फैंट्री बटालियन (टी० ए०)

महार रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (टी० जे०—2190 एल)—  
1 अगस्त, 1992 ।

इन्जीनियर्स

1034 रेलवे इन्जीनियर रेजीमेन्ट (टी० ए०)

(नायब सूबेदार बनाया जाता है )

हवलदार के० विजय राजा (सं० 12298272 अब टी०  
जे०—3674)—15 दिसम्बर, 1990 ।

हवलदार आर० धंगावेलू (सं० 12288270 अब टी०  
जे०—3675)—1 जनवरी, 1991 ।

हवलदार साजु पी० थामस (सं० 12381346 अब टी०  
जे० 3676)—1 जनवरी, 1991 ।

हवलदार सच्चिदानन्द, (सं० 12298346 अब टी० जे०—  
3677)—1 जनवरी, 1991 ।

हवलदार जी० वेनहास्टन (सं० 12289480 अब टी०  
जे०—3678)—1 मार्च, 1991 ।

हवलदार के० पी० उन्नीकृष्णन (सं० 12316471  
अब टी० जे०—3679)—1 मार्च, 1991 ।

के० कुमार  
ले० कर्नेल

जी० एस० ओ०—II टी० ए०—3

-----

(ती मेना मुख्यालय)

सं० 1061, दिनांक —श्री मुहम्मद  
अब्दुल्ला कुट्टी, वरिष्ठ फोरमन (एन० ए० बाई०) को  
सिविलियन तकनीकी अधिकारी (एन० ए० बाई०) के पद  
पर 17 जुलाई, 92 में पदोन्नति करते हैं ।

वे दो वर्ष के लिए परखाधीन रहेंगे ।

यू० एन० खन्ना  
कमांडर

उपनिदेशक सिविलियन कर्मिक

## वायु सेना

संख्या 1062, दिनांक ---राष्ट्रपति,  
निम्नलिखित मूल पदोन्नतियां करने हेतु ---

## भारतीय वायुसेना

## प्रशासन शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की स्क्वाड्रन लीडर के  
मूल रैंक में

आर० गणेश (16103), आर० सिधल (16105)  
--15 जून 1991।

## उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की स्क्वाड्रन लीडर के  
मूल रैंक में

पी० आर० शुक्ला (15683), पी० के० रोंगपी  
(15714), शेर सिंह (15718)--15 जून 1990।

एम० धनराज (16210), एम० शर्मा (16227)--  
30 मई, 1992।

## श्रेमा० इंजी० (यांत्रिक) शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक में  
एल० एम० गौड़ (16538)--9 अगस्त 1991।

## प्रशासन शाखा

फ्लाइट अफसर की फ्लाइट लेफ्टिनेंट  
के मूल रैंक में

एम० के० भारद्वाज (17878)--14 जन 1990।

## श्रेमा० इंजी० (इलेक्ट्रॉन) शाखा

फ्लाइट अफसर की फ्लाइट लेफ्टिनेंट  
के मूल रैंक में

ए० एच० शहीद (18229)--16 सितम्बर 1991।

के० बी० सी० मखानियां (19057)--16 सितम्बर  
1991।

## शिक्षा शाखा

फ्लाइट अफसर की फ्लाइट लेफ्टिनेंट के मूल रैंक में  
वी० एस० इंगले (18341)--07 जून 1991।

## उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाइट अफसर की फ्लाइट लेफ्टिनेंट के  
मूल रैंक में

एस० के० भारती (18781), एम० अग्रवाल  
(18782), ए० आर० गोरे (18783), आर० के०

ओवगय (18784), अशुतोष लाल (18785),  
जे० अंटोनी (18786), ए० नोटियाल (18789),  
अनिल कुमार (18790), आर० एन० राव (18792),  
ए० शुक्ला (18793), वी० मोहन (18795),  
पी० कुमार (18796), आर० सिन्हा (18797), आर०  
वेद (18798), एन० कान्तीकर (18799), एच० अली  
(18800), ए० बोहरा (18801), ओ० एम० मालही  
(18803), पी० जजमान (18804), के० एह्लन  
(18805), टी० सिंह (18806), आर० दिनेशन  
(18807), डी० के० बुध्या (18808), के० पी० प्रसाद  
(18809), आर० रंजन (18810), ए० शर्मा (18811),  
नी० के० कुमार (18812), वी० वी० देड़गोंकर (18813),  
आर० जी० रेमाण्ड (18814), एस० सी० मिश्रा (18815),  
एस० श्रीवास्तवा (18816), एम० जे० मोहन (18817),  
के० कृष्णन (18818), ई० खानिद (18819), एम०  
एम० पी० राव (18820), आर० एम० चौहान (18821),  
के० एस० एम० कुमार (18822), विजय कुमार (18823),  
एम० वाई० मराठे (18824), एम० विधाते (18825),  
एस० चौधरी (18826), एम० गुप्ता (18827), आर्च०  
पी० सिंह (18828), टी० के० वर्गीस (18829), जे०  
मथाई (18830), वी० जौहरी (18831), एस० वी०  
टोडकर (18833), मोहंदास राज (18834), एस० दाम  
(18836), एस० के० भट्टनागर (18838), एस० जोश  
(18839), एस० भट्टाचार्यजी (18840), एन० जी०  
सिंह (18841), के० पी० जी० सिंह (18842), वी०  
सिंह (18843), आर० आर० सिंह (18844), ए० के०  
त्रिपाठी (18845) --13 जून, 1992।

पी० के० जीशी (17852)--14 जून 1990।

## मौसम विज्ञान शाखा

फ्लाइट अफसर की फ्लाइट लेफ्टिनेंट के मूल रैंक में

आर० के० धिंगरा (18429), ए० के० वशिष्ठ  
(18425), ए० के० गोयल (18424), के० आर०  
नारायणा (18428), एस० त्यागी (18430), एन० के०  
राणा (18431), ए० वाजपेयी (18423), एस० एन०  
मिश्रा (18427), आर० विद्योत (18422), आर० शर्मा  
(18420), एन० शर्मा (18421), संजोय (18418),  
बी० एस० झा (18419)--13 जन, 1992।

## एच० वी० शर्मा,

स्क्वाड्रन लीडर, सहा० निदेश० का० आफ 3(डी)

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा

सं० 1063, दिनांक 21 अक्टूबर, 1992--सेवानिवृत्ति  
की आयु प्राप्त होने पर, रक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर के  
श्री एम० पी० पांडा, वैज्ञानिक 'सी' 30 सितम्बर, 1992

(अपराह्न) में नौकरी में सेवानिवृत्त हुए और 1 अक्टूबर, 1992 (पूर्वाह्न) में पेंशन स्थापना में स्थानांतरित किए गए।

डी० जे० एन्ड्रयू,  
महायक निदेशक (कार्मिक)

सेना शाखा

सं० 1064 दिनांक राष्‍ट्रपति,  
निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख में, उनके सामान्य सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने में पूर्व ही, व्यक्तिगत कारणों से उनके ही अनुरोध पर रक्षा सेना से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करने है और उन्हें अधिकारियों के नियमित आरक्षित श्रेणी (X) ए० आई० 10/एस/63 के अन्तर्गत स्थानांतरित कर दिया गया है।

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

(आई० सी० 23249) मेजर ए० के० पेंहरा, इन्जिनियर्स—  
29 मार्च, 1989 (अपराह्न)।

(आई० सी० 13631) कर्नल यू० सी० टाकुर,  
इन्जिनियर्स—19 जनवरी, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-18566), ले० कर्नल के० एल० गर्मा,  
इन्जिनियर्स—15 फरवरी, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-15060) ले० कर्नल आर० पी० आहूजा  
इन्जिनियर्स—28 फरवरी, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-24067) ले० कर्नल जी० एस० ई०  
प्रसाद, इन्जिनियर्स—17 मार्च, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-32964) मेजर के० गुरु प्रसाद,  
इन्जिनियर्स—19 मार्च, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-24502) मेजर पी० बासु, इन्जिनियर्स—  
30 मार्च, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-29618) मेजर ए० के० पटनी, इन्जि-  
नियर्स—31 मार्च, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-20679) ले० कर्नल (टी० एस०), एस०  
के० मल्होत्रा, इन्जिनियर्स—1 अप्रैल, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-26611) मेजर सी० राजकुमार,  
इन्जिनियर्स—4 अप्रैल, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-14307) कर्नल डी० नी० आचार्य,  
इन्जिनियर्स—5 अप्रैल, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-23206) मेजर के० मखाना बी० ए०,  
इन्जिनियर्स—5 अप्रैल, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-28001) मेजर अजित बहल, इन्जिनियर्स  
—15 अप्रैल, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-11033) कर्नल एच० सी० सूरी,  
इन्जिनियर्स—20 अप्रैल, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-29290) मेजर बी० एस० रेड्डी,  
इन्जिनियर्स—21 अप्रैल, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-23659) मेजर श्री कृष्णास्वामी, इन्जिनियर्स  
—30 अप्रैल, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-18176) ले० कर्नल डी० एस० अजूलाना,  
इन्जिनियर्स—30 अप्रैल, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-28813) मेजर आर० म्मामीनाथन,  
इन्जिनियर्स—13 मई, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-24153) ले० कर्नल (टी० एम०)  
बी० ई० पोटी, इन्जिनियर्स—5 जून, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-19819) कर्नल वी० एम० आइय्यर,  
इन्जिनियर्स—20 जून, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-22330) कर्नल डी० एस० खैरा,  
इन्जिनियर्स—24 जून, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-25911) मेजर ए० आर० प्रधान,  
इन्जिनियर्स—29 जून, 1990 (अपराह्न)।

(आर० सी०-78) कैप्टन सिकन्दर सिंह, इन्जिनियर्स—  
16 जुलाई, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-13774) कर्नल एम० जे० गनपति;  
इन्जिनियर्स—24 जुलाई, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-17457) मेजर के० गिद्यामानी, इन्जिनियर्स  
—25 जुलाई, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-28652) मेजर वी० बी० ए० राजन,  
इन्जिनियर्स—30 जुलाई, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-13250) कर्नल विवेक बोपलाल,  
इन्जिनियर्स—31 जुलाई, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-26385) मेजर वी० के० ब्रनाटी,  
इन्जिनियर्स—31 जुलाई, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-15108) ले० कर्नल ए० एम० गर्मा,  
इन्जिनियर्स—31 जुलाई, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-17473) मेजर अणोक वडन, इन्जिनियर्स  
—11 अगस्त, 1990 (पूर्वाह्न)।

(आई० सी०-19820) कर्नल कमलेश प्रकाश, इन्जिनी-  
यर्स—18 अगस्त, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-19899) मेजर वाई० पी० मिहदेव,  
इन्जिनियर्स—20 अगस्त, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-25002) कैप्टन के० एन० राय,  
इन्जिनियर्स—21 अगस्त, 1990 (अपराह्न)।

(आई० सी०-12458) कर्नल एस० मोहन, इन्जिनियर्स  
—22 अगस्त, 1990 (अपराह्न)।



(आई० सी०-18607) ले० कर्नल एस० एम० डोडी, इन्जिनियर्स—31 अगस्त, 1990 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-23281) मेजर एस० बी० पुरी, इन्जिनियर्स—17 सितम्बर, 1990 (पूर्वाह्न) ।

(आई० सी०-13240) ले० कर्नल के० के० मरवान, इन्जिनियर्स—18 सितम्बर, 1990 (पूर्वाह्न) ।

(आई० सी०-23571) मेजर ए० बी० दास, इन्जिनियर्स—18 सितम्बर, 1990 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-19954) मेजर सिंगम, इन्जिनियर्स—22 सितम्बर, 1990 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-28195) मेजर पी० एम० बेदी, इन्जिनियर्स—22 सितम्बर, 1990 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-19814) ले० कर्नल जे० एन० हजारेका, इन्जिनियर्स—1 अक्टूबर, 1990 (पूर्वाह्न) ।

(आई० सी०-22783) मेजर एम० शहीद हसन, इन्जिनियर्स—7 अक्टूबर, 1990 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-29013) मेजर एन० एन० कपूर, इन्जिनियर्स—15 अक्टूबर, 1990 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-19831) मेजर एम० एन० गुप्ता, इन्जिनियर्स—15 अक्टूबर, 1990 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-19643) मेजर एम० पी० एस० चौहान, इन्जिनियर्स—17 अक्टूबर, 1990 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-19807) कर्नल एस० के० मन्होत्रा, इन्जिनियर्स—31 अक्टूबर, 1990 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-14162) मेजर डी० एम० धर्क, इन्जिनियर्स—14 नवम्बर, 1990 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-18701) ले० कर्नल एम० एम० नेगी, इन्जिनियर्स—15 नवम्बर, 1990 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-26427) मेजर आर० एस० मलिक, इन्जिनियर्स—26 नवम्बर, 1990 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-29371) मेजर रनजीत उपाध्याय, इन्जिनियर्स—14 दिसम्बर, 1990 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-19856) मेजर पी० एस० कोहली, इन्जिनियर्स—18 दिसम्बर, 1990 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-29961) मेजर जान मैथीउ, इन्जिनियर्स—31 दिसम्बर, 1990 (अपराह्न) ।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके सामान्य सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व ही, व्यक्तिगत कारणों से उनके ही अनुरोध पर रक्षा सेवा में निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करने हैं और उन्हें अधिकारियों के नियमित आर्गनाइजेशन ( )

ए० आई० 10/एस/63 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(आई० सी०-21676) ले० कर्नल (टी० एम०) ओ० पी० कटियाल, मिगनलम—31 जुलाई, 1990 (अपराह्न) ।

(एस० एल०-2797) कैप्टन डी० आर० एन्थोनी, जी० एच०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-32922) मेजर एम० पाल, इन्ट०—29 फरवरी, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-29258) मेजर एम० एम० भदूरिया, आर्टिलरी—4 मार्च, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-18354) कर्नल आर० एस० आइयर, आर्टिलरी—6 अप्रैल, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-25491) मेजर एस० ए० तमहानी, इन्जिनियर्स—6 अप्रैल, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-21802) कर्नल प्रेम चन्द, के० सी०, एम० एम०, बी० एस० एम०, इन्फैन्ट्री—8 अप्रैल, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-22398) मेजर कृष्ण प्रसाद, ए० ई० सी०—15 मई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-24280) मेजर जी० एम० तूर, ऐ० ओ० सी०—3 मई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-19257) मेजर के० जे० मिश्र, ए० ओ० सी०—10 मई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-38092) कैप्टन ए० मैनेजिन, ए० ओ० सी०—19 मई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-32462) मेजर सुरिन्द्र पाल, इन्फैन्ट्री—31 मई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-24845) मेजर जगदेव सिंह अटवाल, ए० एम० सी०—31 मई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-12990) मेजर एम० एम० बकशी, ए० ओ० सी०—2 जून, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-24613) मेजर गेर मिह, इन्फैन्ट्री—8 जून, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-36739) मेजर आर० एन० मंत्रू, इन्फैन्ट्री—25 जून, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-25248) मेजर एम० एन० चमन्द, आर्टिलरी—27 जून, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-15711) ले० कर्नल ए० एम० सिंह,  
ए० ओ० सी०-30 जून, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-16735) मेजर बलवन्त सिंह, इन्फैन्ट्री—  
1 जुलाई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-19534) मेजर हरिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री—  
12 जुलाई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-32937) मेजर एम० एस० बरार,  
इन्फैन्ट्री—15 जुलाई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-22260) मेजर चन्द्रशेखरन, इन्फैन्ट्री—  
15 जुलाई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-38360) मेजर आई० के० टाह, इन्फैन्ट्री—  
15 जुलाई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-21008) मेजर एम० एस० चौहान,  
इन्फैन्ट्री—15 जुलाई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-00231) ले० कर्नल जी० एस० कहलोन,  
आर० वी० सी०-16 जुलाई, 1992 (पूर्वाह्न) ।

(आई० सी०-24817) मेजर आई० पी० सिंह,  
आर्टिलरी—19 जुलाई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-27053) मेजर आर० एस० शखावत,  
इन्फैन्ट्री—21 जुलाई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-29787) मेजर एस० पी० सिंह,  
इन्फैन्ट्री—31 जुलाई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-15514) ले० कर्नल (टी० एस०) एम०  
खुराना, आर्टिलरी—1 अगस्त, 1992 (पूर्वाह्न) ।

(आई० सी०-25395) मेजर वी० के० ठाकरे, सिगनल्स  
—2 अगस्त, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-32712) ले० कर्नल वी० के० शर्मा,  
सिगनल्स—11 अगस्त, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-17670) ले० कर्नल ए० के० सिन्हा,  
सिगनल्स—19 अगस्त, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-25693) मेजर के० पी० चन्ना, आर्टिलरी  
—19 अगस्त, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-15653) ले० कर्नल अरुण कुमार,  
आर्टिलरी—22 अगस्त, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-32790) मेजर वी० के० शर्मा,  
सिगनल्स—21 अगस्त, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-15091) ले० कर्नल पी० एस० वर्मा,  
आर्टिलरी—28 अगस्त, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-21105) ले० कर्नल (टी० एस०  
ए० एम०) चौवड़ा, इंजीनियर्स—29 अगस्त, 1992  
(अपराह्न) ।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के  
आगे दी गई तारीख से उनके सामान्य सेवा निवृत्ति की  
आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व ही व्यक्तिगत कारणों से उनके  
ही अनुरोध पर रक्षा सेवा से निवृत्त होने की अनुमति  
प्रदान करते हैं और उन्हें अधिकारियों के नियमित आरक्षण  
एस० ए० आई० 10/एस/63 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर  
दिया गया है ।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(आई० सी०-24594) टी० एस० रोय, वीर (क  
इंजीनियर्स—11 जनवरी, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-25394) मेजर के० पी० विजय कुमार,  
इंजीनियर्स—17 जनवरी, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-29994) ले० कर्नल (टी० एस०)  
एल० जे० आई० प्रकाश, इंजीनियर्स—6 फरवरी, 1991  
(अपराह्न) ।

(आई० सी०-17540) ले० कर्नल (टी० एस०)  
जी० एल० सेठी, इंजीनियर्स—6 फरवरी, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-29778) मेजर मोहन्ती असरिता कुमार,  
इंजीनियर्स—16 फरवरी, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-13667) ले० कर्नल (टी० एस०)  
आर० सी० महहोत्रा, इंजीनियर्स—19 फरवरी, 1991  
(अपराह्न) ।

(आई० सी०-24979) ले० कर्नल एस० एल० अशोक,  
इंजीनियर्स—19 फरवरी, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-29850) मेजर डी० के० राजपूत,  
इंजीनियर्स—19 फरवरी, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-24983) ले० कर्नल ए० ए० फिरो,  
इंजीनियर्स—28 फरवरी, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-23557) ले० कर्नल ए० एम० अहमदगम,  
इंजीनियर्स—28 फरवरी, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-16759) कर्नल विरेन्द्र प्रसाद, इंजीनियर्स  
—10 मार्च, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-13412) मेजर एम० सी० पांडे,  
इंजीनियर्स—15 मार्च, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-15098) कर्नल एम० एस० बालागनेशन,  
वी० एम० एल०, इंजीनियर्स—18 मार्च, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-29643) मेजर आर० के० छाबड़ा, इजीनियर्स—30 मार्च, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-20656) कर्नल मलकियत सिंह, इजीनियर्स—9 अप्रैल, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-14498) कर्नल डी० पी० काला, इजीनियर्स—9 अप्रैल, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-19102) मेजर परमिन्दर सिंह, इजीनियर्स—9 अप्रैल, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-20961) ले० कर्नल पी० ए० देवधर, इजीनियर्स—31 मई, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-32134) मेजर रविन्दर दत्ता, इजीनियर्स—5 जून, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-28942) ले० कर्नल आर० पी० मोंगा, इजीनियर्स—30 जून, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-38522) कैप्टन आर० आर० नायर, इजीनियर्स—30 जून, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-26507) ले० कर्नल जी० एस० चौधरी, इजीनियर्स—6 जुलाई, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-35017) मेजर ए० एस० राका, इजीनियर्स—10 जुलाई, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-32615) मेजर मामबाली पालीकान्दी जगदीश, इजीनियर्स—10 जुलाई, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-20755) मेजर जी० पी० ढोंडवाल, इजीनियर्स—14 जुलाई, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-16506) कर्नल बी० बी० जादव, इजीनियर्स—13 जुलाई, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-28806) ले० कर्नल मान्जाली देबाशी अन्डोनी, इजीनियर्स—15 जुलाई, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-23251) ले० कर्नल कानूनगो, जे० सी०, इजीनियर्स—15 जुलाई, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-22399) ले० कर्नल आर० एन० कपूर, इजीनियर्स—16 जुलाई, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-23048) ले० कर्नल वी० के० सेठी, इजीनियर्स—16 जुलाई, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-25014) ले० कर्नल बी० होनावार, इजीनियर्स—19 जुलाई, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-24545) ले० कर्नल डी० के० सहगल, इजीनियर्स—13 अगस्त, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-23739) ले० कर्नल पी० जी० चौहान, आर्टिलरी—27 सितम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-16856) कर्नल इन्द्र सैन भाटिया, इन्फैन्ट्री—7 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-13776) कर्नल एल० एन० पी० एस० सोईन, इन्फैन्ट्री—15 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-20909) कर्नल रविन्द्र मिह आर्टिलरी—10 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से, उनके सामान्य सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व ही व्यक्तिगत कारणों से उनके ही अनुरोध पर रक्षा सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं, और उन्हें अधिकारियों के नियमित आरक्षित श्रेणी (X) ए० आई० 10/एस/63 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया गया है :—

#### नियमित सेना

##### स्थायी कमीशन

(आई० सी०-14051) ले० कर्नल एल० एस० माकन, आर्टिलरी—26 फरवरी, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-22743) ले० कर्नल सुरेन्द्र शर्मा, इन्फैन्ट्री—10 मार्च, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-23054) ले० कर्नल राधविन्द्र लाल, इन्फैन्ट्री—22 मार्च, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-17842) मेजर डी० बी० गुरुंग, इन्फैन्ट्री—27 मार्च, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-28430) ले० कर्नल कुलदीप सिंह लोटे, आर्टिलरी—28 मार्च, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-39904) मेजर चन्द्रशेखरन वी० वी०, सिग्नलस—30 मार्च, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-25200) मेजर वी० के० रावल, वी० एस० एम०, आर्टिलरी—31 मार्च, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-24064) ले० कर्नल डी० एन० चिन्नेचानकार, इजीनियर्स—31 मार्च, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-19691) ले० कर्नल बी० के० लूथरा, इजीनियर्स—31 मार्च, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-23959) मेजर डी० एस० माकर, आर्टिलरी—31 मार्च, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-23660) ले० कर्नल ए० के० मुखर्जी, इजीनियर्स—31 मार्च, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-12459) कर्नल एम० एन० मदान, इन्फैन्ट्री—31 मार्च, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-17665) ले० कर्नल आर० के० मेनन, सिग्नलस—31 मार्च, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-25475) मेजर एच० एन० चतुर्वेदी, सिगनल्स  
--01 अप्रैल, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-23411) मेजर सुरिन्द्र सिंह, सिगनल्स--  
06 अप्रैल, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-20967) ले० कर्नल ए० चिदा, सिगनल्स--  
08 अप्रैल, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-27189) मेजर एम० जालामुश्रामान्यन,  
आर्टिलरी--14 अप्रैल, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-28860) मेजर एम० एन० देवदास,  
इंजीनियर्स--16 अप्रैल, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-20759) ले० कर्नल एम० ए० लक्ष्मणन्त,  
इंजीनियर्स--24 अप्रैल, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-23629) ले० कर्नल एम० के० कोहल,  
इंजीनियर्स--29 अप्रैल, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-18780) मेजर पी० ए० दवे, इन्फैंट्री--  
30 अप्रैल, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-19618) मेजर एस० के० घोष, इन्फैंट्री--  
30 अप्रैल, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-28736) मेजर एन० वी० कुमार, आर्टिलरी  
--03 मई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-19707) ले० कर्नल जी० एस० बैनर्जी,  
इंजीनियर्स--04 मई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-15415) ले० कर्नल बी० वी० गिराली,  
सिगनल्स--09 मई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-24058) ले० कर्नल एम० एन० सिंह, इंजी-  
नियर्स--19 मई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-24947) मेजर एन० एस० राजशेखरन्त,  
आर्टिलरी--25 मई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-16658) ले० कर्नल राजेन्द्र प्रताप, आर्टिलरी  
--25 मई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-21532) कर्नल एस० एस० शेखावत, पी०  
एन० आर०--25 मई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-26609) ले० कर्नल वी० एस० सबरवाल  
आर्टिलरी--31 मई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-25017) ले० कर्नल जी० विद्यासागर,  
इंजीनियर्स--31 मई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-13191) कर्नल जे० सी० वर्मा, इंजीनियर्स,  
--31 मई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-25019) ले० कर्नल आर० एन० राजागोपाल  
सिगनल्स--31 मई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-28623) ले० कर्नल ए० एस० वारियार, इन्ट०  
--31 मई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-16628) कर्नल के० सी० गोस्वामी, इन्फैंट्री  
--31 मई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-21490) कर्नल आर० के० मनषन्दा,  
आर्टिलरी--01 जून, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-23503) मेजर एम० एस० टी० मेनन,  
इंजीनियर्स--02 जून, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-27192) मेजर आर० एस० हरनेजा, इंजी-  
नियर्स--05 जून, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-29466) मेजर पी० के० कृष्ण कुमार,  
इंजीनियर्स--09 जून, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-32561) मेजर टी० एस० पी० बेवली,  
आर्टिलरी--22 जून, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-17557) कर्नल एस० जगन्नाथन, इंजीनियर्स  
--23 जून, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-20219) ले० कर्नल डी० एस० राजपूत,  
वीरचक्र, इन्फैंट्री--24 जून, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-14321) मेजर आर० एस० सिन्हा, इंजी-  
नियर्स—24 जून, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-25679) मेजर वी० ए० यामस, इंजीनियर्स  
—30 जून, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-16704) ले० कर्नल एन०के० वाहल, इंजी-  
नियर्स—30 जून, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-24805) ले० कर्नल जे० जे० सिंह, इन्फैन्ट्री  
—30 जून, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-25617) मेजर यू० एन० भारद्वाज,  
सिगनल्स—30 जून, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-26718) ले० कर्नल ओ० पी० यादव, ए०  
ई० सी०—01 जुलाई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-20727) मेजर सी० एल० कौलधर,  
सिगनल्स—06 जुलाई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-27157) ले० कर्नल ए० बी० लाल,  
इंजीनियर्स—24 जुलाई, 1992 (अपराह्न) ।

(आई० सी०-19916) ले० कर्नल वी० एस० रावत,  
सिगनल्स—01 अगस्त, 1992 (अपराह्न) ।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के  
आगे लिखित तिथियों से उनके साधारण निवृत्ति की आयु के  
प्राप्त करने पर सेना की सेवा से निवृत्त करते हैं :—

#### नियमित सेना

#### (स्थायी आयोग)

कर्नल भूपेन्द्र सिंह शेरगिल (आई० सी०-16804 वाई),  
ए० ओ० सी०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल निशाकान्त शुक्ला (आई० सी०-22870 एक्स)  
ए० ओ० सी०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल महावीर सिंह तिवेधिया (आई० सी०-12235  
वाई) ए० एस० सी०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल खुराहू सोरावित भरुचा (आई० सी०-  
20040 एच), ए० एस० सी०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल ओमवीर सिंह आर्य (आई० सी०-20041 एल),  
सिगनल्स—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल विजय कुमार सिंह (आई० सी०-18399 एल),  
सिगनल्स—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) खुशदेव सिंह तिथाना (आई० सी०-  
21841 डब्ल्यू), सिगनल्स—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल श्याम बिहारी शर्मा (आई० सी०-14987 एफ),  
ए० ई० सी०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल अशोक कुमार (आई० सी०-18750 एफ),  
ए० ई० सी०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) अनेन्दर सिंह विल्लो (आई० सी०-  
14992 एम), ए० ई० सी०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल कृष्ण गोपाल (आई० सी०-14985 डब्ल्यू),  
ए० ई० सी०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल कुलदीप सिंह बाबा (आई० सी०-18352 ए),  
इन्ट० कोर—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल तिलक राज महन्त (आई० सी०-20914 एल)  
इन्ट०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल बी० जे० आक्कड़ा (बी०-148 एक्स), आर० बी०  
सी०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल प्रकाश चन्द्र पाण्डुरंग आधव (आई० सी०-14968  
डब्ल्यू), ई० एम० ई०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल रणजीत कुमार सैन (आई० सी०-15522 ए), ई०  
एम० ई०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल बीना नाथ गुप्ता (आई० सी०-17909 पी), ई०  
एम० ई०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल धर्म वीर मलिक (आई० सी०-20949 एफ), ई०  
एम० ई०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल सन्तोष लाल डेवरा (आई० सी०-22188 ए),  
ई० एम० ई०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल सयलेश चन्द्र भट्टाचार्य (आई० सी०-21147 के), इन्जीनियर्स—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल विजय कुमार मायसा (आई० सी०-20403 एफ), इन्जीनियर्स—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल प्रेम कुमार गर्ग (आई० सी०-22111 एक्स), इन्जीनियर्स—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल तारा चन्द्र पाण्डेय (आई० सी०-17908 एम), इन्जीनियर्स—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) चन्द्र मोहन आनन्द (आई० सी०-18171 पी), इन्जीनियर्स—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल वासुदेव सिंह सैनी (आई० सी०-21821 एच), मेक० इन्फैन्ट्री—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) अजय कुमार सनपाल (आई० सी० 20237 डब्ल्यू), मेक० इन्फैन्ट्री अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) इन्द्र सूर्य भटनागर (आई० सी०-22227 एन), मेक० इन्फैन्ट्री—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल महावीर सिंह (आई० सी०-22329 के), आर्टी०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल अमृत सिंह अलग (आई० सी०-22758 एल) आर्टी०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल सर्वशील शर्मा (आई० सी०-18666 एफ), आर्टी०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल सूरतसिंह (आई० सी०-20382 डब्ल्यू), आर्टी०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल तारा चन्द्र बेदी (आई० सी०-20187 वाई), आर्टी०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल यशवन्त काशीनाथ डालि (आई० सी०-22831 आर्टी०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) धीरेश कुमार शर्मा (आई० सी०-21354 डब्ल्यू), आर्टी०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल महावीर प्रसाद (आई० सी०-17080 वाई), आर्टी०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) भूपेन्द्र कुमार बंध, वीरचक्र (आई० सी०-21104 पी), आर्टी०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) लक्ष्मीमन राय (आई० सी० 13332 एच), आर्टी०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) अजमेर सिंह (आई० सी० -15572 वाई), आर्टी०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) विद्याधर रामाचन्द्र कुलकर्णी (आई० सी०-18779 के), आर्टी०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

मेजर रणजीत सिन्हा (एस० एल०-1841 पी), क्यू० एम०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

मेजर हरबन्स लाल (एस० एल०-1876 एल), ई० एम० ई०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

मेजर पारोमल कान्ती षटर्जी (एम० एल०-2015 एफ), सिगनल्स—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

मेजर जोगेन्द्र सिंह (एम० एल०-2157 वाई), सिगनल्स—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

कैप्टन मोहिन्दर सिंह (आर० सी०-107 पी), इन्जीनियर्स—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

कैप्टन पी० राममुगा राजा (आर० सी०-117 वाई), आर्टी०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

कैप्टन वर्धन सिंह (आई० सी०-120 वाई), आर्टी०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

कैप्टन शोख मदाख वाली (आर० सी०-125 एक्स), सिगनल्स—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० विजय सिंह तबर (आर० सी०-233 एफ), ए० प्रो० सी०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० चरण सिंह सिखॉन (आर० सी०-242 एच); ई० एम० ई०—31 अक्टूबर 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल वासुदेव सैनी (आई० सी०-21821 एच),  
गाई०स—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल मोहित सिंह (आई० सी०-20853 वाई),  
राज० रिफ०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल केशव वल्ल उपाध्याय (आई० सी०-12379 एफ),  
सिख एल० आई०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल इन्द्र मोहन शर्मा (आई० सी०-12669 वाई),  
मराठा एल० आई०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल राधाकृष्ण सिंह चौहान (आई० सी०-13756  
वाई), सिख एल० आई०—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) सोम नाथ सुनेजा (आई० सी०-  
22000 ए), बिहार—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) अजय कुमार सनयाल (आई०  
सी०-20237 डब्ल्यू), गाई०स—31 अक्टूबर 1991  
(अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) ध्यान सिंह रलाधिया (आई०  
सी०-15709 ए), सिख एल० आई०—31 अक्टूबर,  
1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) धनी राम शन्डील (आई०  
सी०-14220 पी) डोगरा—31 अक्टूबर, 1991  
(अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) इन्द्र सरूप भटनागर (आई०  
सी०-22227 एन)—31 अक्टूबर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल करण सिंह चौहान (आई० सी०-22281 एफ),  
राज० रिफ०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल सुदर्शन कुमार रामपाल (आई० सी०-  
13838 एफ), महार—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल रामवास नागाराजम (आई० सी०-18707  
ए), पैरा०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल महेन्द्र प्रताप (आई० सी०-11916 पी),  
महार—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल बिहारी लाल शर्मा (आई० सी०-14423  
वाई), जैक राईफल—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) पिर्था सिंह किंगडा (आई०  
सी०-21892 के) डोगरा—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी० एस०) महेन्द्र सिंह माथुर (आई०  
सी०-26126 एक्स), जाट—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी० एस०) सुरेन्द्र कुमार शर्मा (आई०  
सी०-18139 ए), जैक राईफल—30 नवम्बर, 1991  
(अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) श्रीकार नाथ सक्सेना (आई०  
सी०-12174 एम) राज राईफल—30 नवम्बर, 1991  
(अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) जयसी शेर सिंह जैकॉब  
(आई० सी०-22724 एफ), जैक राईफल्स—30 नवम्बर,  
1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) सुदर्शन लाल धीर (आई०  
सी०-18564 एल), राज राईफल्स—30 नवम्बर, 1991  
(अपराह्न) ।

कर्नल हरेन्द्र सिंह (आई० सी०-20233 एच), 8 जी०  
आर०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल चन्द्र पाल सिंह (आई० सी०-18616  
डब्ल्यू), 1 जी० आर०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

मेजर कर्म पाल सिंह मान (आई० सी०-22784 एम),  
सिख एल० आई०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

मेजर बलवन्त सिंह (एस० एल०-1592 एफ),  
क्यू० एम०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

मेजर जय चन्द (एस० एल०-2017 एम) सिगनल्स—  
30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

मेजर उज्जागर सिंह (एस० एल०-2075 डब्ल्यू),  
क्यू० एम०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

मेजर इन्द्र सिंह गुलेरिया (एस० एल०-2298 एन),  
आर० श्रो०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कैप्टन कुन्दन सिंह (एस० एल०-2351 एन), क्यू०  
एम०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न)

कैप्टन राम अवतार (आर० सी०-34 एन), कुमायूँ—  
30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कैप्टन जोगेन्द्र सिंह शर्मा (आर० सी०-45 ए)  
ए० श्रो० सी०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कैप्टन खेम सिंह मनोला (आर० सी०-124 पी),  
कुमायूँ—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कैप्टन जोगेन्द्र सिंह सन्धू (आर० सी०-134 वाई),  
आर्टि०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कैप्टन पुष्यकुलम कृष्णन (आर० सी०-142 एक्स),  
आर्टि०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

लेफ्टिनेंट बलजिन्दर सिंह (आर० सी०-199 एम),  
सिख—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

लेफ्टिनेंट फकीर सिंह (आर० सी०-254 एक्स),  
डोगरा—30 नवम्बर 1991 (अपराह्न) ।

कैप्टन हरका बहादुर ऐली (आर० सी०-104 एफ),  
जी० आर०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल कश्मीरी लाल बिन्ना (आई० सी०—13783 एम) आर्टि०—30 नवम्बर 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल ईश्वर प्रसाद माथुर (आई० सी०—12202 एन), आर्टि०—30 नवम्बर 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल अरुणागिरी थासारी (आई० सी०—18328 के), आर्टि०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) सुधीर कुमार श्रीवास्तव (आई० सी०—21034 एफ), आर्टि०—30 नवम्बर 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) कालेलन्दा बोपाथाह ऊथापा (आई० सी०—20473 ए) आर्टि०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) बृज मोहन (आई० सी०—21362 एक्स) ई० एम० ई०—30 नवम्बर 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल राजेन्द्र सिंह (आई० सी०—12385 पी), ई० एम० ई०—30 नवम्बर 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल हरपाल सिंह (आई० सी०—21462 ए), ई० एम० ई०—30 नवम्बर 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल हरीश चन्द्र पन्त (आई० सी०—13869 एफ), ई० एम० ई०—30 नवम्बर 1991 (अपराह्न) ।

मेजर रवि भूषण राय साहनी (आई० सी०—18235 पी), ई० एम० ई०—30 नवम्बर 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल कृष्णा मुर्षी तगीराला (आई० सी०—19768 के) ई० एम० ई०—30 नवम्बर 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) कृष्ण कुमार खन्ना (आई० सी०—21359 पी) ई० एम० ई०—30 नवम्बर 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल विक्रम सिंह (आई० सी०—14514 एच) मेक० इन्फैन्ट्री—30 नवम्बर 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल प्रभु सिंह वीर चक्र (आई० सी०—13317 एन) मेक० इन्फैन्ट्री—30 नवम्बर 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल हर मोहन सिंह (आई० सी०—21538 पी), इन्जीनियर्स—30 नवम्बर 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) गोविन्दाराव मोहन छिवकावालापुर (आई० सी०—16502 एम) इन्जीनियर्स—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) करनैल सिंह बोपाराय (आई० सी०—22163 एन) इन्जीनियर्स—30 नवम्बर 1991 (अपराह्न) ।

मेजर कुलभूषण चौपडा (आई० सी०—16738 एफ), ए० ओ० सी०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न)

ले० कर्नल (टी० एस०) प्रेम जग थापा (आई० सी०—17451 डब्ल्यू), ए० ओ० सी०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) राम चन्द्र छत्री (आई० सी०—16989 एल), ए० ओ० सी०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल जोगेन्द्र सिंह सन्धु (आई० सी०—17264 एक्स), ए० ओ० सी०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल कमलेश कुमार (आई० सी०—21931 एक्स), ए० ओ० सी०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल गुरदास सिंह चहल (आई० सी०—22640 के), ए० ओ० सी०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल तारा कुमार छत्री (आई० सी०—16728 एक्स), ए० ओ० सी०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

मेजर सुरेन्द्र पाल शर्मा (आई० सी०—17107 एल), ए० एस० सी०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल रणजीत सिंह (आई० सी०—17348 एल), ए० एस० सी०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) शाम लाल शर्मा (आई० सी०—21945 एक्स), ए० एस० सी०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

मेजर गुरबचन सिंह (आई० सी०—12417 एन), ए० एस० सी०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) तनेन्द्र सिंह डिल्लों (आई० सी०—15214 एन), ए० एस० सी०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल वैकटारमण कालापानी श्रीनिवासन (आई० सी०—21551 वाई), सिगनल्स—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल अशोक कुमार दूबे (आई० सी०—18393 के), सिगनल्स—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

मेजर प्रभात कुमार भण्डारी (आई० सी०—18804 एक्स), सिगनल्स—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल विजेन्द्रा नाथ रतनाकर (आई० सी०—13471 एम), ए० ई० सी०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल कृष्ण (आई० सी०—15418 ए), सिगनल्स—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।



ले० कर्नल माखन लाल मुकुन्द लाल राय (आई० सी०—22797 के), ए० ई० सी०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल भगवती प्रसाद (आई० सी०—12295 एन), ई० एम० ई०—30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल अजीत सिंह राठौड़ (आई० सी०—16947 एक्स), ए० ओ० सी०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

मेजर बखशीण सिंह (आई० सी०—21161 डब्ल्यू), ए० ओ० सी०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल देवेन्दर सिंह सोलंकी (आई० सी०—22303 पी), ए० एस० सी०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल नरेन्द्र पाल सिंह (आई० सी०—18823 एच), ए० एम० सी०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल गुरचरण सिंह लुधरा (आई० सी०—22934 एक्स)—ए० एस० सी०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

मेजर जोसफ मथियास खोबो (आई० सी०—17806 डब्ल्यू), ए० एस० सी०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल नन्द लाल बरोजा (आई० सी०—22851 एम), सिगनल्स—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल बाल कृष्ण गुप्ता (आई० सी०—12159 एक्स), सिगनल्स—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल जेशराज पुरोहित (आई० सी०—18678 डब्ल्यू), सिगनल्स—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल फ्रिम दलाल (आई० सी०—11818 पी), सिगनल्स—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एम०) सुशील कुमार (आई० सी०—22424 डब्ल्यू), सिगनल्स—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एम०) जसवन्त सिंह घुम्मान (आई० सी०—21479 एन), सिगनल्स—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) प्रताप सिंह (आई० सी०—13661 वाई), सिगनल्स—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एम०) मधुकर गोविन्द घाटिगन (आई० सी०—21996 एल), सिगनल्स—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एम०) उमद सिंह नेगी (आई० सी०—16626 एफ), ए० ई० सी०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एम०) दलबीर सिंह जामवाल (आई० सी०—18332 एम), इन्ट कौर—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

4—324GI/92

ले० कर्नल सी० पाल सिंह राठौड़ (आई० सी०—18390 डब्ल्यू),—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल केवल कृष्ण गुप्ता (आई० सी०—20665 एक्स), ई० एम० ई०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल प्रेम नारायण पाण्डेय (आई० सी०—20994 एन), ई० एम० ई०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल हरबन्त सिंह चौधरी (आई० सी०—20987 एक्स), ई० एम० ई०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एम०) धर्मवीर छिब्रर (आई० सी०—22864 के), ई० एम० ई०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल अबालूर रमण गणपथी (आई० सी०—18198 एम), इन्जीनियर्स—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल रमेश चन्द पन्त (आई० सी०—13300 ए); इन्जीनियर्स—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल हरमेन्दर सिंह डांडाना (आई० सी०—19773 पी), इन्जीनियर्स—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल रवि कुमार मयोर (आई० सी०—13304 डब्ल्यू), इन्जीनियर्स—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल प्रीतपाल नरला (आई० सी०—12944 एन), इन्जीनियर्स—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल निरव नाथ सन्तोत्रा (आई० सी०—13812 एम), आर्टि०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल विलोक चन्द रावल (आई० सी०—20734 एव), आर्टि०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल कुप्पा स्वामी विश्वनाथन (आई० सी०—13767 एल), आर्टि०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल ओपेन्दर कुमार (आई० सी०—18886 एल), आर्टि०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल राम स्वल्प दत्ता (आई० सी०—18816 एम), आर्टि०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एम०) मुकुन्द लाल माहकीजा (आई० सी०—22500 एक्स), आर्टि०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एम०) हरबन्त सिंह चौधरी (आई० सी०—15631 ए), आर्टि०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एम०) ज्ञानेन्द्र पाल सिंह (आई० सी०—15714 एल), आर्टि०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एम०) शिवदान सिंह (आई० सी०—17387 के), आर्टि०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल जय नारायण (आई० सी०-14668 पी),  
जैक एल० आई०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल देवेन्द्र सिंह सन्धानवालिवा (आई० सी०-  
12344 एल), जैक एल० आई०—31 दिसम्बर, 1991  
(अपराह्न) ।

ले० कर्नल विनोद कुमार मेहता (आई० सी०-13284  
एन), जैक राईफल्स—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल रमेश चन्द्र दत्त जोशी (आई० सी०-  
18051 डब्ल्यू)—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल जगरूप सिंह बरार (आई० सी०-14433  
एच), राज राईफल्स—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल कुलवन्त सिंह सामग्राल (आई० सी०-  
16930 एल), जैक राईफल्स—31 दिसम्बर, 1991  
(अपराह्न) ।

ले० कर्नल रणबीर सिंह मेहता (आई० सी०-20413  
एल), जैक एल० आई०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कर्नल शान्ती स्वरूप (आई० सी०-12377 डब्ल्यू),  
मद्रास —31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल कुलबीर सिंह बिन्द्रा (आई० सी०-13065  
एम), सिख—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल नवल किशोर (आई० सी०-22459 एम),  
सिख—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) पुराजीत लहरी (आई० सी०-  
12950 एल), मराठा एल० आई०—31 दिसम्बर, 1991  
(अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) बलबीर सिंह (आई० सी०-  
14741 एच), महार—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) सुरेन्द्र मोहन महना (आई०  
सी०-21659 डब्ल्यू), राजपूत—31 दिसम्बर, 1991  
(अपराह्न) ।

ले० कर्नल पद्मामाडा बलियप्पा चगप्पा (आई० सी०-  
14725 एल), कर्नाट—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) तरमेम लाल घई (आई० सी०-  
21440 एफ), मद्रास—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) मधुकर श्रीपतराव अधिकारी  
(आई० सी०-21141 एच), राज राईफल्स—31 दिसम्बर,  
1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल प्रेम चन्द (आई० सी०-18747 एफ),  
11 जी० आर०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) औम प्रकाश गोडवान (आई०  
सी०-18043 एक्स), 4 जी० आर०—31 दिसम्बर,  
1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) प्रियंका मिश्र छिती (आई० सी०-  
16822 एफ), 8 जी० आर०—31 दिसम्बर, 1991  
(अपराह्न) ।

ले० कर्नल (टी० एस०) गुणचन्द्र दाता (आई० सी०-  
13751 ए), 9 जी० आर०—31 दिसम्बर, 1991  
(अपराह्न) ।

अजा पात नर्मा (आई० सी०-13820 ए), 8 जी०  
आर०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

मेजर सुरेन्द्र सिंह डेब्रोटा (आई० सी०-26137 के),  
महार—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

ले० कर्नल रतन सिंह सिंहिया (आई० एल०-1825  
एक्स), व्ही० एम०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कैप्टन अमर नाथ (एफ० ए०-1450 के), आर०  
ओ०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

मेजर मेजर डि गूड तात (ए० ए०-2045 ए),  
आर० ओ०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

मेजर च नार्मा सोमासुता नात (ए० ए०-  
2342 ए), व्ही० एम०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कैप्टन मान कृष्ण (ए० ए०-2536 पी), व्ही०  
एम०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कैप्टन ओम प्रकाश कातार (आर० सी०-27 एन),  
सिख—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कैप्टन राजेश नागती (आर० सी०-32 एच),  
सिख—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कैप्टन टुलसि सिंह (आर० सी०-46 एच), सिख—  
31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कैप्टन हरमजन सिंह (आर० सी०-74 पी), सिख—  
31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कैप्टन किशोर चन्द (आर० सी०-84 ए), सिख—  
31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कैप्टन सुदीप प्रकाश नाथ (आर० सी०-113 एच),  
ई० एम० ई०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कैप्टन जागत्य गोपात (आर० सी०-117 डब्ल्यू),  
इन्जीनियरिंग—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कैप्टन धरमजित सिंह (आर० सी०-197 एफ), ए०  
ओ० सी०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

कैप्टन गुणचन्द्र गोविल (आर० सी०-219 पी),  
ई० ए० ई०—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

मेजर सूर्य कुमार दात सन्ताना (ए० ए०-  
2241 आई), सिख—31 दिसम्बर, 1991 (अपराह्न) ।

वी० के० जालन्धर,  
कर्नल, ए० ए० (आर० ए० आर०)

ई० एम० ई० कोर

सं० 1065, दिनांक —निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दिए हुए दिनांक से निर्धारित समय पर सेवा निवृत्त हुए —

ई० एम० ई० अधिकारी (सिविलियन), एम० प्रिया सामी —30 नवम्बर, 1992 (अपराह्न) ।

वी० के० प्रभाकरराव,  
जे० कर्नल, समुद्र निदेशक ई० एम० ई० (सिव०)

सं० 1066, दिनांक —निम्न-लिखित राजपत्रित अधिकारियों की मृत्यु हो जाने पर उनके नाम के आगे दर्शायी गई तिथि से जे० एम० शाखा की नफरी में हटाया गया —

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 21st November 1992

No. 1048, dated 13th October 1992.—The President is pleased to appoint M's Sonu Agnihotri as ad hoc Lecturer in Chinese in Videshi Bhasha Vidyalaya in the pay scale of Rs. 2200—4000 with effect from 13th July, 1992 (F.N.) for a period of 6 months or till a regular incumbent becomes available, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Smt. Saimistha Gupta Basant as ad hoc Lecturer in Chinese in Videshi Bhasha Vidyalaya in the pay scale of Rs. 2200—4000 with effect from 15th July, 1992 (F.N.) for a period of 6 months or till a regular incumbent becomes available, whichever is earlier.

P S. CHHINA, Dy. Secy.

ARMY BRANCH  
(MGO's BRANCH)

No. 1049, dated 20th October, 1992.—The following stenographers grade 'C' are appointed on temporary basis as Stenographer grade 'B' (PS) of AFHQ Stenographers' Service for the periods mentioned against their names or till persons from the select list become available, whichever is earlier—

1. Smt. ID Magoo from 1-1-91 to 30-6-91  
from 1-7-91 to 31-12-91
2. Shri MM Kapoor from 1-1-91 to 30-6-91  
from 1-7-91 to 31-12-91  
from 1-1-92 to 30-6-92  
from 1-7-92 to 31-12-92
3. Shri RK Khatri from 1-1-91 to 30-6-91  
from 1-7-91 to 31-12-91
4. Shri MR Jain from 1-1-91 to 30-6-91
5. Shri Gyan Prakash from 1-1-92 to 30-6-92  
from 1-7-92 to 31-12-92

2. Their appointment is purely on temporary basis and they can be reverted without notice for administrative reasons

A. P. MUND,  
Dy. Chief Administrative Officer

No. 1050, dated 1992.—The President is pleased to make the following appointments—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION

To be 2 11 with effect from 08 June 1991)

Pawan Dutt (IC-50272W) Engrs, Sandeep Singh Rawat (IC-50273Y) AC, P Sajan Moideen (IC-50274F) Arty, Vikram Singh Chauhan (IC-50275K) Inf, Kuljeet Singh (IC-50275M) Inf, Shalabh Gupta (IC-50277P) Engrs, Vishal 5—334 GI/92

श्री वेदनिधि श्रीवास्तवा, बरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी—  
16 मई, 1992 ।  
श्री के० एम० रे, मृगशास्त्री एम० एम० एम०—11  
अगस्त, 1992 ।

ए० पी० मुग्ध,  
उप-मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्र०)

(विन प्रमाण)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर 1992

सं० ए-11041/1/92-स्था-1-राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा सेवा मेशा के अधिकारी, श्री वी० के० भंडारकर को दिनांक 28 अक्टूबर, 1992 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक रक्षा मंत्रालय के विन प्रमाण से अंतर विनोय मलाहकार एव संयुक्त मन्त्र के रूप में नियुक्त करने हैं ।

कु० आर० जकुनवा,  
उप-विनोय मलाहकार (स्थाना)

Guleria (IC-50278X) Engrs, Dharam Raj Rai (IC-50279A) Inf, Anil Kumar (IC-50280P) Inf, G Shankar (IC-50281X) Engrs, Amit Khokhran (IC-50282A) Arty, Shamsher Singh (IC-50283H) Inf, Adhitya Vikram Singh Rathee (IC-50284L), Inf, Deependra Singh Sengar (IC-50285N) Arty, Vijay Pal Singh Dahiya (IC-50286W) Arty, Kulbir Singh Sanewal (IC-50287Y) AC, Sushil Kumar (IC-50288F) EME, Gurjeet Singh Sandhu (IC-50289K) Inf, TJ Ajith Kumar (IC-50290Y) Inf, Pradeep Kumar (IC-50291F) Mech, Rajesh Singh (IC-50292K) Engrs, Dan Singh Visht (IC-50293M) AOC, Vijayavithala K Gudi (IC-50294P) Sigs, Ranbir Singh Lamba (IC-50295X), Arty, Sandeep Sital (IC-50296A) Inf, Puneet Kapoor (IC-50297H) EME, Pankaj Fotodar (IC-50298I), Sigs, Anil Kumar Mor (IC-50299N) Inf, Vinod Kumar Kalra (IC-50300X) AOC, Navdeep Brar (IC-50301A) Arty, Vikas Kumar (IC-50302H) EME, Maneesh Chugh (IC-50303L) Sigs, Ranjan Mallik (IC-50304N) Inf, Ravi Navel (IC-50305W) Engrs, Arvind Chauhan (IC-50306Y) Inf, Mohit Mahendroo (IC-50307F) ASC, Amarjot S Mangat (IC-50308K), Sigs, Gajendra Singh Dasoondi (IC-50309M) Mech, Ajaya Nand Khandui (IC-50310F) EME, Paramjit Singh Pathaja (IC-50311K) Inf, Gurvinder Singh (IC-50312M), Arty, Mohit Trivedi (IC-50313P) Inf, Karnail Singh (IC-50314X) Arty, Dependra Manrai (IC-50315A) Inf, Gundam Venkata Seshi Reddy (IC-50316H) Arty, Mahendra Singh Payal (IC-50317L) Sigs, Rajesh Sihag (IC-50318N) EME, Shivakumar B Sasalatti (IC-50319W) Inf, Manish Luthra (IC-50320L) Inf, Pratap Singh Ranawat (IC-50321N) AC, Ram Chandra Yadav (IC-50322W) Inf, Govind Singh Tanwar (IC-50323Y) Inf, S Sooraj (IC-50324F) ASC, Raghuvir Singh Bhaskar (IC-50325K) ASC, Saurabh Sinha (IC-50326M) AOC, Rai Singh Gujar (IC-50327P) Inf, Amish Chadha (IC-50328X) Inf, Prabhjot Singh Bhatti (IC-50329A) Arty, Gurbaksh Singh (IC-50330P) Arty, Veer Mehta (IC-50331X) AOC, Reniay George (IC-50332A) Mech, Manish Sarin (IC-50333H) Inf, Jaspal Singh Madan (IC-50334L) EME, Bhupinder Pal Singh (IC-50335N) Engrs, Satyamurti (IC-50336W) AOC, Tarun Agrawal (IC-50337Y) Arty, Manoj Marutao Salaskar (IC-50338F) Engrs, Ranjan Keron (IC-50339K) AC, Voodev Parida (IC-50340Y) Arty, Jagpreet Singh (IC-50341F) ASC, M Muruganatham (IC-50342K) Arty, Adesh Kaushik (IC-50343M) AC, Gautam Paintal (IC-50344P) ASC, Mohit Nandia (IC-50345X) Engrs, Vijay Kumar Gurung (IC-50347H) Inf, Sunil Chauhan (IC-50348I) Arty, Jose Vaghese (IC-50349N) EME, Harinder Singh Sidhu (IC-50350H) Inf, Ajay Feroze Shah (IC-50351L) Inf, Karumanchi Solomon Raja Kumar (IC-50352N) Arty, Ashurosh Kumar (IC-50353W) Inf, Awaninder Singh Malhotra (IC-50354Y) Inf, Sinha Kumaran PA (IC-50355P) Inf, Rajesh Krishan (IC-50356K) AC, Vikas Jaswal (IC-50357M) Arty, Ajay Soni (IC-50358P) Arty, Paramvir Singh (IC-50360M) AOC, Vijay Kumar Sharma (IC-50361P) EME, Santosh Kumar Jayaswal (IC-50362X) Mech, J Sangu Sakaram (IC-50363A) Engrs, Naveen Rathi (IC-50364H) Arty, Shalendra Shreedhar Karhade (IC-50365L) Sigs, Anil Pathak (IC-50366N) Arty, Thangjam Tikendra Singh (IC-50367W) Inf, Upendra Singh Kandil (IC-50368Y) Arty, Saish Sudha-

kar Shete (IC-50369F) Inf, Vinod Kumar Bangarwa (IC-50370W) Inf, Sajjan Singh Nehra (IC-50371Y) Inf, Gurdeep Singh Gill (IC-50372F) ASC, Sandeep Bhardwaj (IC-50373K) ASC, Vivek Mathur (IC-50374M) Engrs, Arun Kumar Gautam (IC-50375P) Inf, Birender Singh Rathee (IC-50376X) EME, P Kalai Mohan (IC-50377A) EME, PG Suresh Kumar (IC-50378H) Arty, Sanjeev Kumar (IC-50379L) Inf, Niraj Punjkar (IC-50380A) EME, Shamsheer Singh Kular (IC-50381H) Inf, Santosh Kumar Nair (IC-50382L) Inf, Yogesh Sardana (IC-50383N) Sigs, Shirin Deshpande (IC-50384W) Sigs, D Nandan Pandey (IC-50385Y) AC, Sanjeev Kumar Dutta (IC-50386F) Inf, Narender Singh Negi (IC-50387K) AOC, Jaideep Gopal Surie (IC-50388M) AC, Subodh Kumar (IC-50389P) AOC, Arun Kumar Sinha (IC-50390K) Inf, Raju Kishnani (IC-50391M) Arty, Shesh Sandesh Chandrakant (IC-50392P) Engrs, Vikramjit Singh Gill (IC-50393X) Arty, Jayachandran CJ (IC-50394A) Engrs, Pankaj Sati (IC-50395H) Inf, Pritpal Singh Banga (IC-50397N) Sigs, Rajkumar Kisan Patihankar (IC-50398W) Arty, Kapil Handa (IC-50399Y) Sigs, Narender Singh Dhakad (IC-50400H) EME, Na'k Manish Shashikant (IC-50401L) Inf, Amar Ashok Bapat (IC-50402N) Inf, Atul Mukundrao Salukhe (IC-50403W) AC, Anirban Datta (IC-50404Y) Inf, Birender Kumar (IC-50405F) Arty, Gagan Deep (IC-50406K) Inf, Manmohan Singh (IC-50407M) Inf, Sanjay Kumar Lakra (IC-50408P) EME, Chetan Dhiman (IC-50409X) Inf, Aditya Kumar Verma (IC-50410M) Inf, Virendra Singh Rathore (IC-50411P) Arty, Jaswant Singh (IC-50412X) ASC, Suresh Rameshwar Sharma (IC-50413A) Arty, Anup Alacarajan (IC-50414H) EME, Raghunandan Singh Jasrotia (IC-50416N) Mech, Amit Sharma (IC-50417W) AOC, Satbir Singh Gill (IC-50418Y) Inf, Sunil Kumar Dalal (IC-50419F) AC, Jitendra Damodar Sahastrabudhe (IC-50420M) Inf, Ashok Mishra (IC-50421Y) Inf, Ravi Shankar R (IC-50422F) EME, Ajay Vashis (IC-50423K) Arty, Joshi Prasanna Sudhakar (IC-50424M) Mech, Upendra Singh Raghav (IC-50425P) Inf, Rajiv V Vaid (IC-50426X) AOC, RK Suresh Kumar (IC-50427A) Inf, Manjinder Singh Bhinder (IC-50428H) Inf, Naresh Kumar (IC-50429L) Arty, Sanjay Ahlawat (IC-50430A) ASC, Bipin Kumar (IC-50431H) Arty, Govind Ram Choudhary (IC-50432L) Inf, Prem Singh Sikarwar (IC-50434W) ASC, Bhaduria Anil Bhajansingh (IC-50435Y) Arty, Manoj Ranjan (IC-50436F) Engrs, Rahul Yadav (IC-50437K) Sigs, Shiv Dayal Singh Deol (IC-50438M) Arty, Maninder Singh (IC-50439P) Engrs, Hemanta Panging (IC-50440K) Inf, Pargat Singh (IC-50441M) AC, J Sanjeev (IC-50442P) Inf, Rajiv Kumar Joon (IC-50443X) Inf, Darpan Sood (IC-50444A) Sigs, Sunil Rana (IC-50445H) ASC, Harbind Parmar (IC-50446L) Inf, Sabinder Virdi (IC-50447N) Inf, Yash Pal Yadav (IC-50448W) Inf, Pravin Shankar Tripathi (IC-50449Y) ASC, Shantanu Chaudhary (IC-50450N) Inf, Mahendra Singh (IC-50451W) Arty, Dhananjai Palsokar (IC-50452Y) Inf, Ashim Chaudheri (IC-50453F) Engrs, Ashok Yadav (IC-50454K) Arty, Aman Bhalla (IC-50455M) Engrs, Vikas Sharma (IC-50456P) Arty, Chandra Shekhar Sharma (IC-50457X) ASC, Sumit Sur (IC-50458A) EME, Gajendra Singh Rathore (IC-50459H) AC, Jasbir Singh Batth (IC-50460X) Arty, Harsh Vardhan Dubey (IC-50461A) AOC, Gagandeep Singh (IC-50462H) Inf, Ishwar Singh Thapa (IC-50463L) Inf, K Sathiyamoorthy (IC-50464N) AOC, Vaidya Nitin Vilas (IC-50465W) Sigs, Naresh Kumar (IC-50466Y) Arty, Vivek Nautiyal (IC-50467F) Sigs, Rajeev Kumar (IC-50468K) Inf, Anil Raman (IC-50469M) Inf, Talum Dubi (IC-50470F) Inf, Meharban Singh Bajwa (IC-50471K) Inf, Nilesh A Salvi (IC-50472M) Mech, Raman Myer (IC-50473P) Inf, Ganesh Bhat (IC-50475A) Arty, Amit Bhatnagar (IC-50476H) ASC, Kulwant Kataria (IC-50477L) Inf, M'th'lesh Kumar Bhadani (IC-50478N) Sigs, Raju John (IC-50479W) Sigs, Raman Dada (IC-50480L) Inf, Ranjeet Singh Mann (IC-50481N) Inf, Vaka Bhaskar Reddy (IC-50482W) ASC, Baviseti Sree Nagesh (IC-50483Y) EME, Naresh Kumar Yadav (IC-50484F) ASC, Digvijay Singh Patial (IC-50485K) Inf, Shardendu Dhar Pandey (IC-50486M) Arty, Sanket Deo (IC-50487P) Arty, E Thomas Joseph (IC-50488X) Inf, Kumar Abhishek (IC-50489A) Engrs, Jonnalagedda Venkata Bhaskar Venkateshwar (IC-50490P) EME, Vinod Bajija (IC-50491X) Inf, Navraj Singh Grewal (IC-50492A) Inf, Kanwar Paryag Singh (IC-50493H) Inf, Arun Hariharan (IC-50494L) Engrs, Rabindra Nath Chowdhury (IC-50495N) Arty, Ramendra Kumar Bajpai (IC-50496W) EME, Sandeep Shekhawat (IC-50497Y) Inf, Sanjeev Sood (IC-50498F) Sigs, Manjinder Singh (IC-50500N) Inf, Pradip Kumar Choudhary (IC-50501W) Arty, Ajay Kumar (IC-50502Y) AOC, Shantnu Rishi (IC-50503F) Engrs, Shamay Singh (IC-50504K) Inf, Sushil

Kumar Singh (IC-50505M) Arty, Sarbjeet Singh Obrai (IC-50506P) Mech, Sishupal Singh Panwar (IC-50507X) ASC, Debashish Bose (IC-50508A) Sigs, Anurag Jyoti (IC-50509H) AC, Akhilesh Kumar Yadav (IC-50510X) AC, Joby Joseph (IC-50511A) Inf, Anindya Roy Choudhury (IC-50512H) AOC, Praveen Sharma (IC-50513L) Arty, Vivekjit Singh (IC-50514N) Engrs, K Narender Singh (IC-50515W) Engrs, K Anand (IC-50516Y) Arty, Inder Preet Singh Nanda (IC-50517F) Inf, Danikale Vivek Ramesh (IC-50518K) Inf, Arjun Yadav (IC-50519M) AC, Rakesh Chand Jaiswal (IC-50520F) Inf, Raj Singh Gajara (IC-50521K) Mech, James Balraj Cornelius (IC-50522M) AC, Gyanendra Singh Tewatia (IC-50523P) Inf, Navin Thapa (IC-50524X) Inf, Sandeep Chhikara (IC-50525A) Arty, Piem Kishore P (IC-50526H) ASC, Ajit P Varghese (IC-50527L) Engrs, Rajesh Mehta (IC-50528N) Inf, Viju Sundares (IC-50529W) Arty, Umeshkumar Ojha (IC-50530L) Inf, Piyush Mohan (IC-50531N) Arty, Vijay Kumar Tiwari (IC-50532W) Sigs, Shekharanand Mishra (IC-50533Y) Sigs, Adil Imran (IC-50534F) AOC, Kulwant Singh (IC-50535K) ASC, Pratik Saxena (IC-50536M) Arty, Arvind Kumar Singh (IC-50537P) EME, Aniruddha Sen (IC-50538X) EME, Chandra Sekhar Azad (IC-50539A) Arty, Sudip Roy (IC-50540P) Sigs, Nanduri Venu Gopal (IC-50541X) Inf, Dinesh Sehgal (IC-50543H) AOC, Surinder Mahani (IC-50544L) AC, Chinmaya Madhwal (IC-50545N) Inf, PP Ravindranath (IC-50546W) Sigs, Kirpal Singh (IC-50547Y) Arty, Sahayog Subba (IC-50548F) Inf, Leslie Ojit Missal (IC-50549K) Inf, Rajesh Gajraj (IC-50550Y) Inf, Subash Chandra Pradhan (IC-50551F) Arty, Seemant Kalra (IC-50552K) EME, Rakesh Kumar Chahar (IC-50553M) EME, Gurmeet Singh (IC-50554P) Sigs, Praveen Deo (IC-50555X) ASC, Ajit Kumar Borah (IC-50556A) Arty, KP Rajendra Kumar (IC-50557H) Engrs, Anil Kumar Pokhrival (IC-50558L) Engrs, Maninder Ahluwalia (IC-50559N) Inf, Ramvendra Singh (IC-50560H) Inf, Rajeev Sharma (IC-50561L) Arty, Rajan Madan (IC-50562N) Inf, Jitendra Beniwal (IC-50563W) Inf, Shoban Singh Danu (IC-50564Y) Inf, Vinayak Kondiram Jadhav (IC-50565F) Inf, Kanojia Rajesh Vipatkumar (IC-50567M) Inf, Vikas Choudhary (IC-50568P) Inf, Devendra Kumar Maithani (IC-50569X) Engrs, Abhijit Roy (IC-50570M) Inf, Amjad Zulfikar (IC-50571P) EME, Arun Ganeshrao Pathade (IC-50572X) Arty, Anil Gorshi (IC-50573A) Inf, Arvinder Singh Bindra (IC-50574H) EME, Kadam Manish Shashikant (IC-50575L) Inf, Neeraj Sharma (IC-50576N) EME, Tanmay Sinha (IC-50577W) Arty, Maheshinder Singh (IC-50578Y) Inf, Praveen B (IC-50579F) Engrs, Ommen T Jacob (IC-50580W) Arty, Alok Kumar Singh (IC-50581Y) Arty, Sanjay Tripathi (IC-50582F) Sigs, Charan Singh Baswana (IC-50583K) Engrs, K Srinivas (IC-50584M) Arty, Satish Chari (IC-50585P) AC, MP Arvind (IC-50586X) Sigs, Gurpreet Singh (IC-50587A) Inf, Kuljinder Singh Ahluwalia (IC-50588H) Mech, Joseph Antony (IC-50589L) ASC, Manpreet Singh Chaudhry (IC-50590A) Inf, Kamal Kishore Singh (IC-50592L) Inf, Puneet Datta (IC-50593N) Inf, Debashish Pal (IC-50594W) Inf, Jaswant Singh (IC-50595Y) Engrs, Sube Singh Thukrana (IC-50596F) Inf, Kulvinder Singh Kondal (IC-50597K) Inf, Chandan Kumar (IC-50598M) Inf, Sudarshan Singh (IC-50599P) Arty, Sanjeev Srivastava (IC-50600Y) Sigs, Mohammad Gaffar (IC-50601F) AC, Jatinder Singh (IC-50602K) Inf, Shivkumar Sadhasivan (IC-50603M) Arty, Atmeh Beniwal (IC-50605X) AOC, Rajeev Dalela (IC-50606A) EME, Kamaljeet Singh Pabla (IC-50607H) Arty, Rupendra Thapa (IC-50608L) Inf, Kamath Prashant Narayan (IC-50609N) Arty, Atul Kumar (IC-50610H) Arty, Prateek Hamal (IC-50611L) AC, Raghunath Singh Shekhawat (IC-50612N) Inf, Satyendra Verma (IC-50613W) Sigs, Rakesh Kumar Gautam (IC-50614Y) ASC, Jaishel Kaushal (IC-50615F) EME, Suneet Shankata (IC-50616K) AC, Anil Tewatia (IC-50617M) Arty, Arup Das Gupta (IC-50618P) EME, Vinod Divakaran (IC-50619X) Inf, Munish Sharma (IC-50620M) ASC, Harjinder Pal Singh Dhani (IC-50621P) Inf, Muneesh Sharma (IC-50622X) Inf, CK Rajesh (IC-50623A) Mech, Amardeep Singh (IC-50624H) AOC, Shaik Mahboob Basha (IC-50625L) Inf, Navjot Singh Bhatti (IC-50626N) Inf, Anup Deoli (IC-50627W) Arty, Ashish Gupta (IC-50628Y) Engrs, Sanjeev Baveja (IC-50629F) Sigs, Narinder Pal Singh Toor (IC-50630W) AC, Manoj Datt Sharma (IC-50631Y) AOC, Gagan Khanna (IC-50632F) Engrs, Viender Mohan Bembhi (IC-50633K) Mech, Sanjeev Kumar Marwaha (IC-50634M) EME, Anil Kumar (IC-50635P) EME, PK Pandeem Kumar Pillai (IC-50636X) Arty, Paras Suresh Gupte (IC-50637A) Inf, Suia Ghose (IC-50638H) Engrs, Pankaj Adhar Ahlawat (IC-50639L) AOC, Amardeep Singh (IC-50640A) Engrs, Rajesh Pankaj (IC-50642L) Arty, Pravin Kumar Bhatt (IC-50643N) Inf, Raajin-

der Singh Virk (IC-50644W) Inf, Ravinder Singh Dalal (IC-50645Y) Inf, Pavan Kumar (IC-50646F) Engrs, Sanjay Sahai (IC-50647K) EME, Ashok Kumar (IC-50648M) Arty, Subhash Dar (IC-50649P) Inf, Dinesh T (IC-50650K) AC, Ajay Kumar (IC-50651M) AOC, Rajeev Verma (IC-50652P) Arty, Joshi Padmanabh Shantaram (IC-50653X) Inf, Alok Bhatnagar (IC-50654A) Inf, Navdeep Chaudhary (IC-50655H) Arty, JS Prakash (IC-50656L) Engrs, Rajendra Singh (IC-50657N) Inf and Rajesh Kumar Bali (IC-50658W) ASC

A K SHARMA, Lt Col  
Offg AMS (IC)

No. 1051, dated \_\_\_\_\_ 1992.—The President is pleased to make the following appointment.

**TERRITORIAL ARMY**

**TERRITORIAL COMMISSION**

To be 2/Lt (on probation)

Pradeep Kumar Asileti (TA 42119), Engrs, 17 Nov 1991.

JOSE SENAG, Director (Trg)

**(MILITARY ENGINEER SERVICES)**

No. 1052, dated \_\_\_\_\_ 1992.—The President is pleased to appoint MES-438652 Shri Ram Adhar Dube, Executive Engineer as Superintending Engineer with effect from 10 Aug 92 (FN) till further orders.

**CORPS OF EME**

The President is pleased to appoint Shri RP Makhija, permanent Senior Workshop Officer as Workshop Superintendent in the Corps of Electrical and Mechanical Engineering with effect from 01 Oct 92 (Forenoon).

SS NEGI, Under Secy.

**NATIONAL CADET CORPS**

No. 1053, dated \_\_\_\_\_ 1992.—The President is pleased to grant permanent commission to the following NCC whole time officers as per the provisions of Govt of India Ministry of Defence letter No. 5431/PC-IX/DGNCC/MS(A)/117/S/A/D(GS-VI) dated 17 Sep 1986. Their date of seniority for promotion and pay in permanent commission cadre is indicated against their name below :—

**NCC WHOLE TIME PERMANENT COMMISSION**

**OFFICERS**

**(ARMY WING)**

VK KAPOOR (NCC, PC-6014).

Date of whole time commission service 29-09-72.

Date of seniority for promotion 31-01-61.

Date of seniority for pay 29-09-72

JKD GARG (NCC/PC-12281)

Date of whole time commission service 28-09-73.

Date of seniority for promotion 04-07-66.

Date of seniority for pay 04-07-66.

BB MOHAPATRA, Dy Dir Gen (P&F)  
Dte Gen NCC

**(AIR BRANCH)**

No. 1054, dated \_\_\_\_\_ 1992.—The President is pleased to award Permanent Commission and Wings (on probation for one year) to the undermentioned under the Provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/18731/689/US/D (Air-IV) dated 19 Apr 83. These officers will be eligible for the grant of Flying Pay with effect from

the date of grant of Permanent Commission and Wings (on probation).

**INDIAN AIR FORCE**

(Ex-NDA Cdts to be Pilot Officer)

Mathews JOHN (21544) w.e.f. 14 Dec 91.

HB SHARMA, Sqn Ldr  
ADPO 3(D)

**DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT  
ORGANISATION**

No. 1055, dated \_\_\_\_\_ 1992.—The President is pleased to make the following promotion :—

Shri R. Purushotham, Admin Officer of Gas Turbine Research Establishment, Bangalore to be Senior Administrative Officer Grade-II (Adhoc) in the Centre for Artificial Intelligence & Robotics, Bangalore with effect from 26-6-92 (F/N) for a period of six months or till a regular incumbent is positioned whichever is earlier

D. J. ANDREW, Asstt. Director (Pers)

**(ARMY BRANCH)**

No. 1056, dated \_\_\_\_\_ 1992.—The President is pleased to make the following promotion :—

**REGULAR ARMY**

**PERMANENT COMMISSION**

Lt to be substantive Col

P. Dutta (IC-22742A), Arty, 01st Jun. 1990.

C.B. Jhaldiyal (IC-8253), Engrs., 01st Apr. 1988.

L.S. Rathore (IC-14804A) Inf., 23rd Feb. 1987

S.C. Sharma (IC-15583L) Int Corps, 30th May 1988 but with seniority from 23rd Feb. 1987 without effect on pay and pension.

G.S. Bath (IC-20384F) Engrs., 23rd Feb. 1987.

J. P. Bajpai (IC-15364K), ASC (FIO), 28th Mar 1989 but with seniority from 28th May 1986 without effect on pay and pension.

R. R. Goswami (IC 19422A), Engrs., 01st Jan 1992.

J. K. S. Saraon (IC 19423H), Inf., 01st Jan 1992.

Z. U. Shah (IC-19429K), Arty., 01st Jan 1992.

Ramendra Kumar (IC-19430X), Inf., 01st Jan 1992.

V. K. Girdhar (IC-19432K), Sigs., 01st Jan 1992.

Y. R. Tyagi (IC-19435X), Arty., 01st Jan 1992.

S. K. Sapru (IC-19436A), Inf., 01st Jan 1992.

R. Deshpande (IC-19438L), Sigs., 01st Jan 1992.

S. Sharma (IC-19440H), Inf, 01st Jan 1992.

R. S. Bains (IC-19443W), AC., 01st Jan 1992.

R. Chopra (IC-19445F), Arty., 01st Jan 1992.

P. N. Mehra (IC-19447M), Inf., 01st Jan 1992.

C. S. Bhatia (IC-19455L), Engrs., 01st Jan 1992.

R. P. Gopal (IC-19456N), AOC., 01st Jan 1992.

J. I. Peoples (IC-19457W), Inf., 01st Jan 1992.

S. S. Sandhu (IC-19458Y), AOC, 01st Jan 1992.

- Inderjit Singh (IC-19459F), Arty., 01st Jan 1992.
- S. K. Mehta (IC-19468H), Inf., 01st Jan 1992.
- Raghu Singh (IC-19472L), Inf., 01st Jan 1992.
- R. Singh (IC-19485H), Inf., 01st Jan 1992.
- Gurmil Singh (IC 19488W), ASC., 01st Jan 1992
- Tejinder Singh (IC-19490N) Arty., 01st Jan 1992.
- S. S. Mediratta (IC-19499H), Sigs., 01st Jan 1992
- A. N. Sharma (IC-19505L), Arty., 01st Jan 1992.
- P. K. Mahajan (IC-19506N), Arty., 01st Jan 1992.
- C. B. Vijan (IC 19510W), Arty., 01st Jan 1992.
- V. K. Nigwan (IC-19512I), AOC, 01st Jan 1992.
- J. S. Mankotia (IC-19513K), Inf., 01st Jan 1992
- M. A. K. Chaudhary (IC-19515P) Arty., 01st Jan 1992.
- R. Tandon (IC-19517A), Arty., 01st Jan 1992.
- Rajendra Pratap (IC 16658N), Arty., 01st Nov 1988.
- S. Yadav (IC-19362W), Engrs., 6th Jan 1989 but with seniority from 01st Nov 1988 without effect on pay and pension.
- Ram Singh (IC-22059A), Inf., 01st Feb 1989
- N. M. Paul (IC-22790A), Int Corps 01st Jun 1990.
- Vijay Deep (IC-17029Y), AOC., 01st Mar 1991.
- A. P. Deo (IC-26003I), Arty., 07th Oct 1991.
- I. S. Sethi (IC-22404H), AOC., 01st Aug 1989.
- G.R.C. Rajan (IC-22839A), Engrs., 01st Feb 1990.
- Major to be Substantive Lt Col (By Time Scale)
- V. P. S. Yadav (IC-24436K), Arty., 14th Jun 1991.
- Majors to be Substantive Lt Cols (By Selection)
- Puran Singh (IC-17689W), Arty., 01st Jan. 1991.
- K. K. Bhatia (IC-17826K), Arty., 01st Jan. 1991.
- Samarendra Ghosh (IC-23553H), Engrs., 01st Jan. 1991
- Santosh Kumar (IC-26509K), Arty., 01st Jan. 1991.
- H. C. Seth (IC-26675X), Arty., 01st Jan. 1991
- M. S. Sardesai (IC-26621W), Arty., 01st Jan. 1991.
- Pushkar Puri (IC-19497X), Arty., 01st Jan. 1991
- P. C. Saha (IC-26426Y), Arty., 01st Jan. 1991.
- Ravindra Mohan (IC-19285M), Arty., 01st Jan. 1991
- R. I. Bhandari (IC-26576P), Arty., 01st Jan. 1991.
- Tilak Raj (IC-17305W), Arty., 01st Feb. 1991.
- Jagtar Singh (IC-29190A), EME., 01st May 1991.
- P. D. Sharma (IC-26875N), Arty., 01st May 1991.
- Ashok Kashyap (IC-26879K), Arty., 01st May 1991
- Santosh Singh (IC-26934P), Arty., 01st May 1991.
- A. I. D'Costa (IC-26970A), Arty., 01st May 1991.
- N. F. Chand (IC-28158Y), Arty., 01st May 1991.
- Raj Kishore (IC-28190N), Arty., 01st May 1991
- N. K. Malhotra (IC-28200M), Arty., 01st May 1991.
- D. S. Dhillon (IC-23268K), Arty., 01st May 1991.
- P. V. Choudhary (IC-23284F), Arty., 01st May 1991
- B. S. Guin (IC-23321K), Arty., 01st May 1991.
- Bakshish Singh (IC-23331N), Arty., 01st May 1991
- K. P. D. Shamirra (IC-23375L), Arty., 01st May 1991
- Pankaj Kapoor (IC-23395Y), Arty., 01st May 1991.
- P. M. Hameed (IC-23401F), Arty., 01st May 1991.
- Girish Goswami (IC-23424H), Arty., 01st May 1991.
- V. K. Johar (IC-16613K), Sigs., 01st May 1988.
- A Swarnapandian (IC-17938K), MF, 22nd Jul 1991 but with seniority from 03rd May 1988 without effect on pay and pension.
- T. R. Reddy (IC-17952W), AEC., 21st Sep. 1990 but with seniority from 3rd May 1988 without effect on pay and pension.
- A. S. Sama (IC-24080F), Engrs., 03rd May 1988
- C. D. Sharma (IC-26331Y), EME., 01st Jan 1990
- B. J. S. Sodhi (IC-22646L), Inf., 20th Apr 88 but with seniority from 03rd Apr 88 without effect on pay and pension.
- A. N. Tripathi (IC-22707N), ALC, 16th May 1989 but with seniority from 03rd Apr 1988 without effect on pay and pension.
- Bayan Singh (IC-22913F), AEC, 12th Jul 1989 but with seniority from 03rd Apr 1988 without effect on pay and pension
- M. S. Bhanver (IC-20660Y), Engrs., 10th Oct. 1990.
- V. N. Neelam (IC-19688N), Engrs., 15th Oct 1990
- M. Gopal Rao (IC 23541N), Engrs., 26th Jun 1991.
- N. Dhal (IC-23552A), Engrs., 08th Jul. 1991.
- M. I. S. Vuk (IC-23563M), Engrs., 13th Jun. 1991
- E. J. George (IC-23646X), Engrs., 20th Jun 1991.
- M. I. Nundrajog (IC-22655W), Inf., 04th Jul. 1987.
- S. J. Handa (IC-19354X), Engrs., 01st Aug. 1988.
- S. T. Mammala (IC-26046A), Int Corps., 1-2-90 but with seniority from 03rd May 1988 without effect on pay and pension.
- A. K. Singh (IC 28192Y), Engrs., 01st May 1991
- Gauram Dutt (IC-23266Y), Engrs., 01st May 1991
- S. S. Gill (IC-25365A), Engrs., 01st Jun. 1991
- Santokh Singh (IC-28297H), Engrs., 07th Oct 1991
- R. B. Singh (IC-28311K), Arty., 07th Oct. 1991.
- V. K. Sharma (IC-28358P), Engrs., 07th Oct. 1991
- S. K. Vaid (IC-28572X), Engrs., 07th Oct. 1991.
- R. K. Sharma (IC-28639L), Engrs., 07th Oct. 1991.
- A. K. S. Parmu (IC-29142A), Engrs., 07th Oct. 1991.
- R. R. Munthy (IC-28759K), Engrs., 07th Oct. 1991.
- K. Thomas (IC-25753X), Engrs., 07th Oct. 1991.
- A. K. Munthy (IC-23784Y), Arty., 07th Oct. 1991.
- Mehar Chand (IC-23906X), Arty., 07th Oct. 1991
- Anuj Bhatia (IC-23930N), Arty., 07th Oct. 1991.
- Baidya Sharma (IC-23946Y), Arty., 07th Oct. 1991.
- M. S. Chowhan (IC-23955A) Arty., 07th Oct. 1991.
- B. S. Mann (IC-23961N), Arty., 07th Oct. 1991.
- Yogesh Kumar (IC-23966M), Arty., 07th Oct. 1991.
- S. M. Dalal (IC-24012N), Arty., 07th Oct. 1991
- A. K. Ghambhi (IC-19181Y) Engrs., 01st Jan 1991.

Lt Col A. K. SHARMA.

Assistant Military Secretary

No. 1057, dated 1992.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY  
INTELLIGENCE CORPS

To be Nb Sub

Hav Madan Singh Ramola (No. 4058993N now JC-223463L), 20 Jun 1992.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Mar 1992 without effect on pay and allowances).

Hav Hari Krishan (No. 3977316L now JC-223464N), 06 Apr 1992.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Mar 1992 without effect on pay and allowances).

Hav Mohan Singh (No. 6912283A now JC 223465W), 18 May 1992

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Apr 1992 without effect on pay and allowances).

Hav Narinder Singh (No. 33/5946P now JC-223466Y), 23 Jun 1992.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 May 1992 without effect on pay and allowances).

Hav Vidya Sagar Thakur (No. 13740989W now JC-223467F), 01 May 1992.

Hav Tej Bahadur Khadka (No. 5844308K now JC-223468K), 01 May 1992.

Hav Ranjodh Singh Thakur (No. 3977478W now JC-223469M), 11 Jun 1992.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 May 1992 without effect on pay and allowances).

Hav Pandurang (No. 6373391H now JC 223470T), 13 Jun 1992.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 May 1992 without effect on pay and allowances).

Hav Itty KM (No. 14456918W now JC-223471K), 01 Jun 1992.

Hav Ashok Kumar Dwivedi (No. 14299737P now JC 223472M), 10 Jun 1992.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jun 1992 without effect on pay and allowances).

(To be Nb Sub/Clk)

Hav/Clk Pitamber Singh Negi (No. 4161510L now JC-223473P), 01 Jun 1992

Hav/Clk Mahesh Chandra Paudey (No. 1252681H now JC-223474X), 13 Jun 1992.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jun 1992 without effect on pay and allowances).

Hav/Clk Vidyarthi Gili (No. 13845894P now JC-223475A), 01 Jun 1992.

Hav/Clk Rangappa Talawar (No. 2568921N now JC-223476H), 02 Jun 1992.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jun 1992 without effect on pay and allowances).

PREM KUMAR HANS, Desk Officer

No. 1058, dated 1992.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

Corps of Military Police

To be Nb Sub

Hav Gian Chand (No. 7766441K now JC-223354Y), 1st Apr 1992.\*

(Granted seniority with effect from 01 Jan 1992 without effect on pay and allowances).

To be Naib Subedar Clerk(GD)

Hav G Krishna Naidu (No. 7769248H now JC-223355F), 1st May 1992.

Hav Bijoy Kumar Sinha (No. 7769269Y now JC-223356K) 1st May 1992.

D. R. SHARMA, Under Secy

No. 1059, dated 1992.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PIONEER CORPS

To be Sub Maj (GD)

Sub (GD) Gagan Deo Paswan (IC-144742P), 01st April 1992.

Sub (GD) Ram Raj Mishra (JC-144743X), 01st April 1992.

Sub (GD) Ram Narain Prasad Singh (JC-144744A), 01st April 1992.

Sub (GD) Dharam Singh (JC 144745H), 05th June 1992  
Sub (GD) Ram Kumar (IC-144746I), 01st July 1992.

To be Sub Maj Clk (GD)

Sub Clk (GD) Isidore F (JC-168798A), 01st August 1992.

To be Sub Clk (GD)

Nb Sub Clk (GD) Ram Nath Ram (JC-178527W), 01st February 1992.

Nb Sub Clk (GD) Jagat Lal Tamta (JC-187609A), 01st April 1992.

Nb Sub Clk (GD) Dharam Pal Singh (JC-187610P), 01st August 1992.

Nb Sub Clk (GD) Ram Singh (JC-187611X), 01st August 1992.

Nb Sub Clk (GD) Nand Kishore (JC-187612A), 01st August 1992.

BACHAN SINGH, Col  
Director Pns

No. 1060, dated 1992.—The President is pleased to make the following promotion:—

TERRITORIAL ARMY

108 Infantry Battalion (IA)

THE MAHAR REGIMENT

To be Subedar Maj

Sub Rajendra Prasad Sharma (TJ-2190L), 01 Aug 1992.

RLY ENGR REGT

1034 Railway Engineer Regiment (IA)

To be Nb Sub

Hav K Vijaya Rajah (No. 12298278 now TJ-3674), 15 Dec 90.

Hav R Thangavelu (No. 12298270 now TJ-3675), 01 Jan 91.

Hav Saju P Thomas (No. 12381346 now TJ-3676), 01 Jan 91.

Hav V Sachidananda (No. 12298346 now TJ-3677), 01 Jan 91.

Hav G Vanhalatran (No. 12289480 now TJ-3678), 01 Mar 91.

Hav KP Unnikrishnan (No. 12316471 now TJ-3679), 01 Mar 91.

K. KUMAR, Lt Col  
GSO-I/TA-3

(NAVAL HEADQUARTERS)

No. 1061, dated ———— 1992.—Shri M Abdulla Kutty, Sr. Foreman (NAY) is promoted to the post of Civilian Technical Officer (NAY) w.e.f. 17 Jul 92.

2. He will be on probation for a period of two years.

U. N. KHANNA, Commander, IN  
DDCP

(AIR FORCE)

No. 1062, dated ———— 1992.—The President is pleased to make the following substantive promotion :—

INDIAN AIR FORCE

ADM BRANCH

Flt Lt to be Subs Sqn Ldr

R Ganesh (16103); R Singhal (16105), 15th June 1991.

F (P) BRANCH

Flt Lt to be Subs Sqn Ldr

PR Shukla (15683); PK Rongpi (15714); Sher Singh (15718), 15th June, 1990.

M Dhanraj (16210); S Sharma (16227), 30th May 1992.

AE (M) BRANCH

Flt Lt to be Subst Sqn Ldr

LS Gaur (16538) 09th August 1991.

ADM BRANCH

Fg Offr to be Subs Flt Lt

AE (L) BRANCH

HK Bhardwaj (17878), 14th June, 1990.

Fg Offr to be Subs Flt Lt

AH Sayeed (18229), 16th September, 1991.

KBC Makhania (19057), 16th September, 1991.

EDN BRANCH

Fg Offr to be Subs Flt Lt

VS Ingale (18341), 07th June, 1991.

F (P) BRANCH

Fg Offr to be Subs Flt Lt

AK Bharti (18781); S Agarwal (18782); AR Gore (18783); RK Obrai (18784); Ashutosh Lal (18785); J Antony (18786). A Nautiyal (18789); Anil Kumar (18790); RN Rao (18792); A Shukla (18793); B Mohan (18795); P Kumar (18796); R Sinha (18797); R Vaid (18798). N Kantikar (18799); H Ali (18800); A Vohra (18801); OS Malhi (18803); P Jajmann (18804); K Allen (18805); T Singh (18806); R Dineshan (18807). DK Chughha (18808); KP Prasad (18809); R Ranjan (18810); A Sharma (18811); CK Kumar (18812); VV Dedgaonkar (18813); RG Raymond (18814); SC Mishra (18815); S Srivastava (18816). MJ Mohan (18817), K Krishnan (18818); E Khalid

(18819); SSP Rao (18820) RS Chauhan (18821); KSS Kumar (18822); Vijay Kumar (18823); MY Marathe (18824); S Vidhate (18825); S Chaudhary (18826); S Gupta (18827); IP Singh (18828). TK Veighese (18829); J Mathai (18830); B Johri (18831); SB Todkar (18833); Mohd Raj (18834); S Das (18836); SK Bhatnagar (18838); S Jose (18839); S Bhattacharjee (18840); LG Singh (18841). KPG Singh (18842); V Singh (18843); RR Singh (18844); AK Tripathi (18845), 13th June, 1992.

PK Joshi (17852). 14th June, 1990

MET BRANCH

Fg Offr to be Subs Flt Lt

RK Dhingra (18429); SK Vashist (18425); AK Goel (18424); KR Narayana (18428); S Tyagi (18430); NK Rana (18431); A Bajpayee (18423); SN Mishra (18427); R Vishen (18422). R Sharma (18420); N Sharma (18421); Sanjoy (18418); BS Jha (18419), 13th June, 1992.

H. B. SHARMA, Sqn Ldr  
ADPO 3(D)

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT  
ORGANISATION

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICE

No. 1963, dated ———— 1992.—On attaining the age of superannuation, Shri M.P. Pandya, Scientist 'C', Defence Laboratory, Jodhpur retired from service with effect from 30-09-1992 (A/N) and transferred to pension establishment with effect from 01-10-1992 (F/N).

D .I. ANDREW, Asstt. Director (Pers)

ARMY BRANCH

No. 1064, dated ———— 1992.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from Army Service with effect from the dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons and transfer them to Regular Reserve of Officers (Class X), except Cols retired in 1991, under SAI 10/S, 63, as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

IC-23249Y Maj AK Mehra Engrs, 29-3-89 (AN).

IC-13631F Lt Col UC Thakur Engrs, 19-1-90 (AN).

IC-18566W Lt Col KL Sharma Engrs, 15-2-90 (FN).

IC-15060M Lt Col RP Ahuja Engrs, 28-2-90 (AN).

IC-24067X Lt Col GSE Prasad Engrs, 17-3-90 (FN).

IC-32964H Maj K Guuu Prasad Engrs, 19-3-90 (AN).

IC-24502F Maj P Basu Engrs, 30-3-90 (AN).

IC-29618F Maj AK Patni Engrs, 31-3-90 (AN).

IC-20679 Lt Col (TS) SK Malhotra Engrs, 01-4-90 (AN).

IC-26611M Maj C Raja Kumar Engrs, 04-4-90 (AN).

IC-14307W Col DB Acharya Engrs, 05-4-90 (AN).

IC-23206 Maj K Mandanna BA Engrs, 05-4-90 (AN).

IC-28001 Maj Ajit Bahl Engrs, 15-4-90 (AN).

IC-11033L Col HC Suri Engrs, 20-4-90 (AN).

IC-29290L Maj BS Reddy Engrs, 21-4-90 (AN).

IC-23659P Maj Chandrashekhar Krishnaswamy Engrs, 30-4-90 (AN).

IC-18176N Lt Col DS Aujla Engrs, 30-4-90 (AN).

IC-28813M Maj R Swaminathan Engrs, 13-5-90 (AN).



IC-24153H Lt Col (TS) Balachandran Eswarn Poti Engrs, 05-6-90 (AN).

IC-19819M Col Venkat Subramanyam Iyer Engrs, 20-6-90 (AN).

IC-22330Y Col DS Khera Engrs, 24-6-90 (FN).

IC-26911N Maj AR Pradhan Engrs, 29-6-90 (AN).

RC-78L Capt Sikander Singh Engrs, 16-7-90 (AN).

IC-13774F Col MJ Ganapathy Engrs, 24-7-90 (FN).

IC-17457K Maj Kumar Gianani Engrs, 25-7-90 (AN).

IC-28652P Maj VBA Rajan Engrs, 30-7-90 (AN).

IC-13250A Col Vivek Bopiah Engrs, 31-7-90 (AN).

IC-26385 Lt Col BK Banati Engrs, 31-7-90 (AN).

IC-15108P Lt Col AS Sharma Engrs, 31-7-90 (AN).

IC-17473P Maj Ashok Wahal Engrs, 11-8-90 (FN).

IC-19820P Col Kamlesh Prakash Engrs, 18-8-90 (AN).

IC-19699Y Maj YP Singh Deo Engrs, 20-8-90 (AN).

IC-25002W Capt KN Rai Engrs, 21-8-90 (AN).

IC-12458W Col S Mohan Engrs, 22-8-90 (AN).

IC-18607P Lt Col BB Dhody Engrs, 31-8-90 (AN).

IC-23281N Maj Satish Banarsilal Puri Engrs, 17-9-90

IC-13240 Lt Col KK Sabherwal Engrs, 18-9-90 (FN).

IC-23571L Maj AB Das Engrs, 18-9-90 (AN).

IC-19954A Maj LK Singhal Engrs, 22-9-90 (AN).

IC-28195M Maj PS Bedi Engrs, 22-9-90 (AN).

IC-19814N Lt Col JN Hazarika Engrs, 01-10-90 (FN).

IC-22783K Maj M Shahad Hasan Engrs, 07-10-90 (FN).

IC-29013A Maj NN Capoor Engrs, 15-10-90 (AN).

IC-19831N Maj Surendra Nath Gupta Engrs, 15-10-90 (AN).

IC-19643 Maj MPS Chauhan Engrs, 17-10-90 (AN).

IC-19907X Col SK Malhotra Engrs, 31-10-90 (AN).

IC-14162W Maj DS Ghai Engrs, 14-11-90 (AN).

IC-18701Y Lt Col MS Negi Engrs, 15-11-90 (AN).

IC-26427F Maj RS Malik Engrs, 26-11-90 (AN).

IC-29371L Maj Ranjit Upadhyay Engrs, 14-12-90 (AN).

IC-19856A Maj PS Kohli Engrs, 18-12-90 (AN).

IC-29961K Maj John Mathew Engrs, 31-12-90 (AN).

The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from Army Service with effect from the dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons and transfer them to Regular Reserve of Officers (Class X), except Cols retired in 1991, under SAI 10/S/63, as amended.

#### REGULAR ARMY

##### PERMANENT COMMISSION

IC-21676 Lt Col (TS) OP Katyal Sigs, 31-7-90 (AN).

SL-2797 Capt Desam Rayappa Anthony GS, 30-11-91 (AN).

IC-32922 Maj S Paul Int, 29-2-92 (AN).

IC-29259 Maj SS Bhaduria Arty, 4-3-92 (AN).

IC-18354 Col RS Iyer Arty, 6-4-92 (AN).

IC-25401 Maj Sudhir Anant Tamhane Engrs, 6-4-92  
IC-21802 Col Prem Chand, KC. SM, VSM. Inf, 8-4-92 (AN)

IC-22398 Maj Krishna Prasad AEC, 15-4-92 (AN).

IC-24280 Maj GS Toor AOC, 3-5-92 (AN).

IC-19257 Maj Karam Jit Singh AOC, 10-5-92 (AN).

IC-38092 Capt Alwyn Menezes AOC, 19-5-92 (AN).

IC-32462 Maj Surinder Pal Inf, 31-5-92 (AN).

IC-24845 Maj Jagdev Singh Atwal ASC, 31-5-92 (AN).

IC-12990 Maj SS Bakshi AOC, 2-6-92 (AN).

IC-24613 Maj Sher Singh Inf, 8-6-92 (AN).

IC-36739 Maj HS Sandhu Inf, 25-6-92 (AN).

IC-25248 Maj Shouche Nandkrishore Vasant Arty, 27-6-92 (AN).

IC-15711 Lt Col AM Singh AOC, 30-6-92 (AN).

IC-16735 Maj Balwant Singh Int, 1-7-92 (AN).

IC-19534 Maj Harinder Singh Inf, 12-7-92 (AN).

IC-32937 Maj MS Brar Inf, 15-7-92 (AN).

IC-22260 Maj Chandrasekharan Inf, 15-7-92 (AN).

IC-38360 Maj Rakesh Kumar Tah Int, 15-7-92 (AN).

IC-21008 Maj MS Chauhan Inf, 15-7-92 (AN).

V-00231 Lt Col Gurcharan Singh Kahlon RVC, 16-7-92 (FN).

IC-24817 Maj IP Singh Arty, 19-7-92 (AN).

IC-27053 Maj RS Shaktawat Inf, 31-7-92 (AN).

IC-29787 Maj Singh Surinder Pal Inf, 31-7-92 (AN).

IC-15514 Lt Col (TS) Mahesh Khorana Arty, 01-8-92 (FN).

IC-25395 Maj VK Thakre Sigs, 2-8-92 (AN).

IC-32712 Lt Col VK Sharma Sigs, 11-8-92 (AN).

IC-17670 Lt Col AK Sinha Sigs, 19-8-92 (AN).

IC-25693 Maj Kanthan Pardeep Chandra Arty, 19-8-92 (AN).

IC-15653 Lt Col Arun Kumar Arty, 22-8-92 (AN).

IC-32790 Maj VK Sharma Sigs, 24-8-92 (AN).

IC-15094 Lt Col PS Verma Arty, 28-8-92 (AN).

IC-21105 Lt Col (TS) Atul Mani Chopra Engrs, 29-8-92 (AN).

IC-24594Y Maj TS Roy Vrc Engrs, 11-1-91 (AN).

IC-25394P Maj KP Vijay Kumar Engrs, 17-1-91 (AN).

IC-29994B Lt Col (TS) MJI Prakash Engrs, 06-2-91 (AN).

IC-17540P Lt Col (TS) GL Sethi Engrs, 06-2-91 (AN).

IC-29778F Maj Mohanty Asrita Kumar Engrs, 16-2-91 (AN).

IC-13667A Lt Col (TS) RC Malhotra Engrs, 19-2-91 (AN).

IC-24979W Lt Col SL Athale Engrs, 19-2-91 (AN).

IC-29850M Maj DK Rajput Engrs, 19-2-91 (AN).

IC-24983Y Lt Col UA Kini Engrs, 28-2-91 (AN).

- IC-23557Y Lt Col AM Arumugham Engrs, 28-2-91 (AN).  
 IC 16759X Col Virendra Prasad Engrs, 10-3-91 (AN)  
 IC-13412A Maj MC Pandey Engrs, 15-3-91 (AN).  
 IC-15098W Col MS Balaganesan, VSM Engrs 18-3-91 (AN).  
 IC-29643 Maj RK Chhabra Engrs, 30-3-91 (AN)  
 IC-206565W Col Malkiat Singh Engrs, 09-4-91 (AN)  
 IC-14498N Col DP Kala Engrs, 09-4-91 (AN)  
 IC-19102 Maj Parminder Singh Engrs, 09-4-91 (AN)  
 IC-20961H Lt Col PA Deodhar Engrs, 31-5-91 (AN)  
 IC-32134M Maj Ravinder Dutta Engrs, 05-6-91 (AN).  
 IC-28942M Lt Col RP Monga Engrs, 30-6-91 (AN)  
 IC-38522A Capt RR Nair Engrs, 30-6-91 (AN)  
 IC-26507Y Lt Col GS Choudhry Engrs, 06-7-91 (AN)  
 IC-35017M Maj AS Raka Engrs, 10-7-91 (AN).  
 IC-32615Y Maj Mambally Palikandy Jagadish Engrs, 10-7-91 (AN).  
 IC-20755Y Maj GP Dhondyal Engrs 14-7-91 (AN)  
 IC-16506H Col VB Jadhav Engrs, 13-7-91 (AN).  
 IC-28806W Lt Col Manjaly Devassy Antony Engrs, 15-7-91 (AN)  
 IC-23251W Lt Col Kanungo JC Engrs, 15-7-91 (AN).  
 IC-22399 Lt Col RN Kapur Engrs, 16-7-91 (AN).  
 IC-23048A Lt Col VK Sethi Engrs, 16-7-91 (AN)  
 IC-25014L Lt Col V Honavar Engrs, 19-7-91 (AN)  
 IC-24545W Maj DK Sehgal Engrs, 13-8-91 (AN)  
 IC-23739M Lt Col PG Chavan Arty, 27-9-91 (AN)  
 IC-16856P Col Inder Sam Bhatta Inf, 07-10-91 (AN).  
 IC-13776M Col I NPS Soin Inf, 15-11-91 (AN).  
 IC-2909A Col Ravinder Singh Arty, 10-12-91 (AN)

REGULAR ARMY  
 PERMANENT COMMISSION

- IC-14051 Lt Col IS Makan Arty, 26 Feb 92 (AN).  
 IC-22743 Lt Col Surendra Sharma Inf, 10 Mar 92 (AN).  
 IC-23054 Lt Col Raghvinder Lal Inf, 22 Mar 92 (FN).  
 IC-17842 Maj DB Gurung Inf, 27 Mar 92 (FN)  
 IC-28430 Lt Col Kuldeep Singh Lotay Arty, 28 Mar 92 (AN).  
 IC-29904 Maj Chandrasekharan, VV Sigs, 30 Mar 92 (AN).  
 IC-25200 Maj VK Rawal, VSM Arty, 31 Mar 92 (AN).  
 IC-24064 Lt Col DH Chinchanikar Engrs, 31 Mar 92 (AN)  
 IC-19691 Lt Col Bal Krishan Yubha Engrs, 31 Mar 92 (AN).  
 IC-23959 Maj DS Mikan Arty, 31 Mar 92 (AN).  
 IC 23660 Col AK Mukherjee Engrs, 31 Mar 92 (AN)  
 IC-12459 Col MN Madan Inf, 31 Mar 92 (AN)  
 IC 17665 Lt Col RK Menon Sigs, 31 Mar 92 (AN).  
 IC-25475 Maj HN Chaturvedi Sigs, 01 Apr 92 (AN)  
 IC-23411 Maj Surinder Singh Sigs, 06 Apr 92 (AN)  
 IC-20967 Lt Col Azeem Chida Sigs, 08 Apr 92 (AN).  
 IC-27189 Maj S Balasubramanian Arty, 14 Apr 92 (AN).  
 IC-28860 Maj SN Devadas Engrs, 16 Apr 92 (FN) .

- IC-20750 Lt Col MA Lakshmanan Engrs, 24 Apr 92 (AN)  
 IC-23629 Lt Col SK Kohli Engrs 29 Apr 92 (AN)  
 IC-18780 Maj PA Dave Inf, 30 Apr 92 (AN)  
 IC-19618 Maj SK Ghosh Inf, 30 Apr 92 (AN)  
 IC-28736 Maj N Visanth Kumar Arty, 03 May 92 (AN)  
 IC 19707 Lt Col GS Banerjee Engrs, 04 May 92 (AN)  
 IC-17415 Lt Col BV Shihab Sigs, 09 May 92 (AN).  
 IC 24058 Lt Col SN Singh Engrs, 19 May 92 (AN)  
 IC-34947 Maj NS Rajasekharan Arty, 25 May 92 (AN)  
 IC 16658 Lt Col Rajendra Pratap Arty, 25 May 92 (AN)  
 IC-21532 Col SS Sekhawat PNR 25 May 92 (AN)  
 IC-26609 Lt Col BS Sabharwal Arty, 31 May 92 (AN)  
 IC-25017 Lt Col G Vidyasagar Engrs, 31 May 92 (AN).  
 IC-13191 Col Verma Jagdish Chander Engrs, 31 May 92 (AN)  
 IC-25019 Lt Col RN Rajagopal Sigs, 31 May 92 (AN)  
 IC 28623 Lt Col AS Wanner Int, 31 May 92 (AN).  
 IC 16628 Col KC Goswami Inf, 31 May 92 (AN).  
 IC-21490 Col RK Manchanda Arty 01 Jun 92 (AN)  
 IC-23563 Lt Col MSI Manan Arty, 02 Jun 92 (AN).  
 IC-27192 Lt Col BS Hameja Engrs, 05 Jun 92 (AN).  
 IC-29466 Maj PK Krishna Kumar Engrs, 09 Jun 92 (AN).  
 IC-32561 Maj TSP Bevi Arty, 22 Jun 92 (AN)  
 IC-17557 Col S Jagannathan Engrs, 23 Jun 92 (AN).  
 IC-20219 Lt Col DS Rajput, ViC Inf, 24 Jun 92 (AN)  
 IC-14321 Maj RS Sinha Engrs, 24 Jun 92 (AN)  
 IC-25679 Maj VA Thomas Engrs, 30 Jun 92 (AN).  
 IC-16704 Lt Col NK Vahal Engrs, 30 Jun 92 (AN).  
 IC-24805 Lt Col JJ Singh Int, 30 Jun 92 (AN).  
 IC-25617 Maj UN Bhardwaj Sigs, 30 Jun 92 (AN).  
 IC-26718 Lt Col OP Yadav AEC, 01 Jul 92 (FN).  
 IC-20727 Maj Chaman Lal Kauldhan Sigs, 06 Jul 92 (AN)  
 IC-27157 Lt Col AB Lal Engrs, 24 Jul 92 (AN)  
 IC-19916 Lt Col VS Rawat Sigs, 01 Aug 92 (AN).

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service with effect from the dates noted against them on attaining the normal age of retirement --

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

- Col Bhupinder Singh Sherwail (IC-16804 Y), AOC, 31 Oct 91 (AN)  
 Lt Col Nisha Kant Shukla (IC-22870 X) AOC, 31 Oct 91 (AN)  
 Lt Col Mahabir Singh Tevethia (IC-12235 Y) ASC, 31 Oct 91 (AN)  
 Lt Col Fuzulhad Sorabji Bhaucha (IC-20040 H) ASC, 31 Oct 91 (AN)  
 Col Om Vire Singh Arva (IC-20041 L) Sigs, 31 Oct 91 (AN)

- Col Vijay Kumar Singh (IC-18399 L) Sigs, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col (TS) Khushdev Singh Tiwana (IC-21841 W) Sigs, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col Shyam Behari Sharma (IC-14987 F) AEC, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col Ashok Kumar (IC-18750 F) AEC, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col (TS) Aninder Singh Dhillon (IC-14992 M) AEC, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col Krishan Gopal (IC-14985W) AEC, 31 Oct 91 AN.
- Lt Col Kuldip Singh Bawa (IC-18352 A) Int, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col Tulok Raj Mahant (IC-20914L) Int, 31 Oct 91 (AN).
- Col BJ Akkara (V-148 X) RVC, 31 Oct 91 (AN).
- Col Prakashchandra Pandurang Aghaw (IC-14968 W) EME, 31 Oct 91 (AN).
- Col Ranjit Kumar Sen (IC-15522 A) EME, 31 Oct 91 (AN).
- Col Dina Nath Gupta (IC-17909P) EME, 31 Oct 91 (AN).
- Col Dharam Vir Malik (IC-20949 F) EME, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col Santosh Lal Deora (IC-22188 A) EME, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col Sailesh Chandra Bhattacharya (IC-21147K) Engrs, 31 Oct 91 (AN).
- Col Bijay Kumar Maitra (IC-20403 F) Engrs, 31 Oct 91 (AN).
- Col Prem Kumar Garg (IC-22111 X) Engrs, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col Tara Chandra Pandey (IC-17908 M) Engrs., 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col (TS) Chandra Mohan Anand (IC-18171 P) Engrs, 31 Oct 91 (AN).
- Col Vasdev Singh Saini (IC-21321 H) Mech Inf, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col (TS) Ajay Kumar Sanyal (IC-20237 W) Mech Inf, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col (TS) Inder Sarup Bhatnagar (IC-22227 N) Mech Inf, 31 Oct 91 (AN).
- Col Mahaveer Singh (IC-22329 K) Arty, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col Amrit Singh Algh (IC-22758 L) Arty, 31 Oct 91 (AN).
- Col Sarveshil Sharma (IC-18666 F) Arty, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col Surat Singh (IC-20382 W) Arty, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col Tarachand Bedi (IC-20187 Y) Arty, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col Yashwant Kashinath Datir (IC-22831 Y) Arty, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col (TS) Dhiresk Kumar Sharma (IC-21554W) Arty, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col (TS) Mahabir Prasad (IC-17080Y) Arty, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col (TS) Bhupinder Kumar Vaid, Vir C (IC-21104 P) Arty, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col (TS) Lakshman Rai (IC-13332 H) Arty, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col (TS) Ajmer Singh (IC-15572 Y) Arty, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col (TS) Vidyadhar Ramachandra Kulkarni (IC-18442 K) Arty, 31 Oct 91 (AN).
- Major Ranjit Sinha (SL-1841 P) QM, 31 Oct 91 (AN).
- Major Harbans Lal (SL-1876 L) EME, 31 Oct 91 (AN).
- Major Parimal Kanti Chatterjee (SL-2015 F) Sigs, 31 Oct 91 (AN).
- Major Joginder Singh (SL-2157 Y) Sigs, 31 Oct 91 (AN).
- Capt Mohinder Singh (RC-107 P) Engrs, 31 Oct 91 (AN).
- Capt P Shanmuga Raja (RC-117 Y) Arty, 31 Oct 91 (AN).
- Capt Darshan Singh (RC-120 Y) Arty, 31 Oct 91 (AN).
- Capt Shaik Sadakh Valli (RC-125 X) Sigs, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Vijay Singh Tanwar (RC-233 F) AOC, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Charan Singh Sekhon (RC-242 H) EME, 31 Oct 91 (AN).
- Col Vasdev Singh Saini (IC-21821H), Guards, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col Mohinder Singh (IC-20853 Y) Raj Rif, 31 Oct 91 (AN).
- Col Kashave Datt Upadhyay (IC-12379 F) Sikh LI, 31 Oct 91 (AN).
- Col Indra Mohan Sharma (IC-12669 Y) MLI, 31 Oct 91 (AN).
- Col Radhakrishna Singh Chauhan (IC-13756 Y) Sikh LI, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col (TS) Som Nath Suneja (IC-22000 A) Bihar, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col (TS) Ajay Kumar Sanyal (IC-20237 W) Guards, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col (TS) Dhyan Singh Slathia (IC-15709 A) Sikh LI, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col (TS) Dhani Ram Shandil (IC-14220 P) Dogra, 31 Oct 91 (AN).
- Lt Col (TS) Inder Sarup Bhatnagar (IC-22227N) Guards, 31 Oct 91 (AN).
- Col Karan Singh Chauhan (IC-22281 F) Raj Rif, 30 Nov 91 (AN).
- Lt Col Sudarshan Kumar Rampal (IC-13838 F) Mahar, 30 Nov 91 (AN).
- Lt Col Ramdas Nagarajan (IC-18707 A) Para, 30 Nov 91 (AN).
- Lt Col Mahendra Pratap (IC-11916 P) Mahar, 30 Nov 91 (AN).
- Lt Col Bihari Lal Sharma (IC-14423 Y) Jak Rif, 30 Nov 91 (AN).
- Lt Col (TS) Pirtha Singh Kingra (IC-21892 K) Dogra, 30 Nov 91 (AN).
- Lt Col (TS) Mahendra Singh Mathur (IC-26126 X) Jat, 30 Nov 91 (AN).
- Lt Col (TS) Surrinder Kumar Sharma (IC-18139 A) Jak Rif, 30 Nov 91 (AN).
- Lt Col (TS) Onkar Nath Saxena (IC-12174 M) Raj Rif, 30 Nov 91 (AN).
- Lt Col (TS) Joyce Sher Singh Jacob (IC-22724 X) Jak Rif, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col (TS) Sudaishan Lal Dheer (IC-18564 L) Rajput, 30 Nov 91 (AN).

Col Harinder Singh (IC-20233 H) 8 GR, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col Chandra Pal Singh (IC-18616 W) 1 GR, 30 Nov 91 (AN).

Major Karam Paul Singh Mann (IC-22784 M) Sikh II, 30 Nov 91 (AN).

Major Balwant Singh (SL-1592 F) QM, 30 Nov 91 (AN).

Major Tara Chano (SL-2017 M) Sigs, 30 Nov 91 (AN).

Major Ujjagar Singh (SI-2075 W) QM, 30 Nov 91 (AN).

Major Indar Singh Gubetta (SL-2298 N) RO, 30 Nov 91 (AN).

Capt Kundan Singh (SI-2351 N) QM, 30 Nov 91 (AN).

Capt Ram Awatar (RC-34 N) Kumaon, 30 Nov 91 (AN).

Capt Joginder Singh Dhnoa (RC-45 A) AOC, 30 Nov 91 (AN).

Capt Khim Singh Manola (RC-124 P) Kumaon, 30 Nov 91 (AN).

Capt Joginder Singh Sandhu (RC-134 Y) Arty, 30 Nov 91 (AN).

Capt Puthenkulum Krishnan (RC-142 X) Arty, 30 Nov 91 (AN).

Capt Baljinder Singh (RC-199 M) Sikh, 30 Nov 91 (AN).

Lt Faqir Singh (RC-254 X) Dogra, 30 Nov 91 (AN).

Capt Harka Bahadur Chhetri (RC-104F), GR, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col Kashmiri Lal Bindra (IC-13783 M) Arty, 30 Nov 91 (AN).

Col Ishwat Prasad Mathur (IC-12202 N) Arty, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col Arunagiri Thasari (IC-18328 K) Arty, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col (TS) Sudhir Kumar Srivastava (IC-21034 F) Arty, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col (TS) Kahatanda Bopaiab Uthapa (IC-20473 A) Arty, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col (TS) Brij Mohan (IC-21363 X) EME, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col Rajinder Singh (IC-12385 P) EME, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col Harpal Singh (IC-21462 A) EME, 30 Nov 91 (AN).

Col Harish Chandra Pant (IC-13869 F) EME, 30 Nov 91 (AN).

Major Ravi Bhushan Rai Sawhney (IC-18235 P) EME, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col Krishna Muthu Tangrala (IC-19768 K) EME, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col (TS) Krishna Kumar Khanna (IC-21359 P) EME, 30 Nov 91 (AN).

Col Bikram Singh (IC-14514 H) Mech Inf, 30 Nov 91 (AN).

Col Prabhu Singh, Vrc (IC-13317 N) Mech Inf, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col Har Mohander Singh (IC-21538 P) Engrs, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col (TS) Govindarao Mohan Chhibler Lallapur (IC-16502M) Engrs, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col (TS) Karnail Singh Boparoy (IC-22163 N) Engrs, 30 Nov 91 (AN).

Major Kul Bhushan Chopra (IC-16738 F) AOC, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col (TS) Prem Jang Thapa (IC-17451 W) AOC, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col (TS) Ram Chandra Chhetri (IC-16989 L) AOC, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col Joginder Singh Sandhu (IC-17264 X) AOC, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col Kamlesh Kumar (IC-21931 X) AOC, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col Gurdas Singh Chahal (IC-22640 K) AOC, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col Tara Kumar Chhetri (IC-16728X) AOC, 30 Nov 91 (AN).

Major Surendra Pall Sharma (IC-17107 T) ASC, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col Ranjit Singh (IC-17348 L) ASC, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col (TS) Sham Lal Sharma (IC-21945 X) ASC, 30 Nov 91 (AN).

Major Gurbachan Singh (IC-12417 M) ASC, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col (TS) Japendra Singh Dhillon (IC-15214 N) ASC, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col Venkataramanan Kalapathi Srinivasan (IC-21531 Y) Sigs, 30 Nov 91 (AN).

Col Ashok Kumar Dube (IC-18393 K) Sigs, 30 Nov 91 (AN).

Major Prabhat Kumar Bhandari (IC-18804 X) Sigs, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col Vijayendra Nath Ratnakar (IC-13471 M) AEC, 30 Nov 91 (AN).

Col Krishan (IC-15418 A) Sigs, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col Makhan Lal Mukund Lal Rai (IC-22797K) AEC, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col Bhagwati Prasad (IC-12295 N) EME, 30 Nov 91 (AN).

Lt Col Anant Singh Rathore (IC-16927 X) AOC, 31 Dec 91 (AN).

Major Bakhshish Singh (IC-21161 W) AOC, 31 Dec 91 (AN).

Lt Col Devinder Singh Solanki (IC-22303 P) ASC, 31 Dec 1991 (AN).

Col Narander Pal Singh (IC-18823 H) ASC, 31 Dec 91 (AN).

Lt Col (TS) Gucharan Singh Luthra (IC-22934 X) ASC, 31 Dec 1991 (AN).

Major Joseph Mathias Lobo (IC-17806 W) ASC, 31 Dec 1991 (AN).

Col Nand Lal Baroja (IC-22851 M) Sigs, 31 Dec 91 (AN).

Col Bal Krishna Gupta (IC-12159 X) Sigs, 31 Dec 91 (AN).

Lt Col Jeth Raj Purohit (IC-18678 W) Sigs, 31 Dec 91 (AN).

- Lt Col Cris Dalal (IC-11818 P) Sigs, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col (TS) Sushil Kumar (IC-22424 W) Sigs, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col (TS) Jaswant Singh Ghumman (IC-21479 N) Sigs, 31 Dec 1991 (AN).
- Lt Col (TS) Parfap Singh (IC-13661 W) Sigs, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col (TS) Madhukar Govind Dhatingan (IC-21996 T) Sigs, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col (TS) Umed Singh Negi (IC-16626 F) AFC, 31 Dec 1991 (AN).
- Lt Col (TS) Dalbir Singh Jamwal (IC-18332 M) Int Corps, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col C Pal Singh Rathour (IC-18390 W) Int, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col Kewal Krishan Gupta (IC-20665 X) EMP, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col Prem Narayan Pandey (IC-20994 N) EME, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col Harbans Singh Chopra (IC-20987 X) FME, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col (TS) Dharam Vij Chhibber (IC-22864 K) EME, 31 Dec 91 (AN).
- Col Avalor Raman Ganapathy (IC-18198 M) Engrs, 31 Dec 91 (AN).
- Col Ramesh Chandra Pant (IC-13300 A) Engrs, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col Har Mander Singh Dandona (IC-19773 P) Engrs, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col Ravj Kumar Mayor (IC-13304 W) Engrs, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col (TS) Prithpal Singh Narula (IC-12944 N) Engrs, 31 Dec 91 (AN).
- Col Vishwa Nath Malhotra (IC-13812M) Arty, 31 Dec 91 (AN).
- Col Trilok Chand Rawal (IC-20734 H) Arty, 31 Dec 91 (AN).
- Col Koppuswamy Viswanathan (IC-13767T) Arty, 31 Dec 91 (AN).
- Col Opindar Kumar (IC-18886I), Arty, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col Ram Sarup Datta (IC-18816M), Arty, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col (TS) Mukund Lal Mahkija (IC-22500X), Arty, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col (TS) Harbans Singh Chaudhry (IC-15631A) Arty, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col (TS) Gayanendra Pal Singh (IC-15714L) Arty, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col (TS) Shivdan Singh (IC-17387K) Arty, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col Jai Narayan (IC-14668P), Jak LI, 31 Dec 91 (AN).
- Col Devinder Singh Sandhanwalia (IC-12344L) Jak LI, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col Vinod Kumar Mehta (IC-13284N) Jak Rif, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col Ramesh Chandra Datt Joshi (IC-18051W) Garh Rif, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col Jagroop Singh Brar (IC-14433H) Raj Rif, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col Kulwant Singh Samyal (IC-16930L) Jak Rif, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col Ranbir Singh Mehta (IC-20413L) Jak LI, 31 Dec 91 (AN).
- Col Shanti Swaroop (IC-12377W), Madras, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col Kulbir Singh Bindra (IC-13065M) Sikh LI, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col Nawal Kishore (IC-22459M) Sikh, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col (TS) Purajit Lahiri (IC-12950L) MII, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col (TS) Balbir Singh (IC-14741H) Mahar., 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col (TS) Surinder Mohan Mahna (IC-21659W) Rajput, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col (TS) Pattamada Bellhappa Chengappa (IC-14725L) Kumaon, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col (TS) Tarsem Jal Ghaj (IC-21440F) Madras, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col (TS) Madhukar Supatnao Adhikari (IC-21141H) Raj Rif, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col Prem Chand (IC-18747F) 11 GR, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col (TS) Om Prakash Godayal (IC-18043X) 4 GR, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col (TS) Bikram Singh Chhetri (IC-16822F) 8 GR, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col (TS) Subhas Chander Datta (IC-13751A) 9 GR, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col (TS) Ajai Pal Sharma (IC-13820L) 8 GR, 31 Dec 91 (AN).
- Maj Surinder Singh Azrot (IC-26137K) Mahar, 31 Dec 91 (AN).
- Lt Col Ratan Singh Shishodia (SL-1825X) QM, 31 Dec 91 (AN).
- Capt Amar Nath (SL-1450K) RO, 31 Dec 91 (AN).
- Maj Major Singh Budwal (SL-2045Y) RO, 31 Dec 91 (AN).
- Maj Chellamma Gopalakrishnan Nair (SI-2342M) QM, 31 Dec 91 (AN).
- Capt Bal Kishan (SI-2536P) QM, 31 Dec 91 (AN).
- Capt Om Prakash Kawmer (RC-27X) Sigs, 31 Dec 91 (AN).
- Capt Rajput Jhagardip (RC-32H) Sigs, 31 Dec 91 (AN).
- Capt Tehal Singh (RC-46H) Sigs, 31 Dec 91 (AN).
- Capt Harbajan Singh (RC-74P) Sikh, 31 Dec 91 (AN).
- Capt Kishore Chand (RC-84Y) Sigs, 31 Dec 91 (AN).
- Capt Shukdeo Prasad Yadav (RC-113H) FME, 31 Dec 91 (AN).
- Capt Jagataram Ghoshal (RC-147W) Engrs, 31 Dec 91 (AN).
- Capt Dhan Pal Singh (RC-197F) AGC, 31 Dec 91 (AN).
- Capt Subhash Chandra Ghosh Paul (RC-219P) EME, 31 Dec 91 (AN).

Maj Surya Kumar Kar Mahapatra (SL 2241Y) Sigs.  
31 Dec 91 (AN)

V K ANAND,  
Col  
Col MS Retirement & Release

CORPS OF EME

No. 1065, dated 26th October 1992.—The undermentioned Officer retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the date noted against his name:—

Shri M Periya Samy, EME Officer (Civilian)—30 Sep 1992 (Afternoon).

V K PRABHAKARAN  
Lt Col  
JD EME (Civ)

No. 1066, dated 20th October 1992.—The following Gazetted officers of AFHQ, Ministry of Defence have

expired and struck off strength in GS Branch from the date shown against their names.

- (a) Sh. Vednishi Sivastava, SRO, GS/SI—16-5-92
- (b) Sh. K. S. Ray, Sup. Examiner, BCS—14-8-92.

A. P. MUND,  
Dy Chief Administrative Officer

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 30th October 1992

No. A-11041/1/92-Est.I.—The President is pleased to appoint Shri V. K. Bhandarkar, an officer of the Indian Defence Accounts Service, as Additional Financial Adviser & Joint Secretary in the Finance Division of the Ministry of Defence with effect from the 28th Oct., 1992 (Forenoon), until further orders.

Km. R SHAKUNTALA,  
Deputy Financial Adviser (E)